

**SET – 3**

**Series : SSO/1**

कोड नं.

Code No.

**67/1/3**

रोल नं.

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **23** हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **23** प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जायेगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains **23** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **23** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

## लेखाशास्त्र ACCOUNTANCY

निर्धारित समय : 3 घंटे ]

Time allowed : 3 hours ]

[ अधिकतम अंक : 80

[ Maximum Marks : 80

सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र **तीन** भागों में विभक्त है – **क, ख और ग** ।
- (ii) भाग **क** सभी छात्रों के लिए **अनिवार्य** है ।
- (iii) परीक्षार्थियों को शेष भाग **ख** (वित्तीय विवरणों का विश्लेषण) और **ग** (अभिकलित्र लेखांकन) में से कोई एक भाग हल करना है ।
- (iv) एक प्रश्न के सभी भागों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखिए ।

**General Instructions :**

- (i) This question paper contains **three** parts **A, B and C**.
- (ii) Part **A** is **compulsory** for all.
- (iii) There are two parts. Part **B** – Financial Statement Analysis and Part **C** – Computerized Accounting. Attempt only one Part.
- (iv) **All** parts of a question should be attempted at **one** place.

67/1/3

1

[P.T.O.]

**भाग – क**

**PART – A**

**(साझेदारी फर्मों तथा कम्पनियों के लिए लेखांकन)**

**(Accounting for Partnership Firms and Companies)**

1. 'हरी, राम तथा शर्मा' की फर्म से हरी के अवकाश ग्रहण करते समय स्थिति-विवरण लाभ-हानि खाते के नाम में ₹ 12,000 का शेष दर्शा रहा था। हरी को देय राशि की गणना करने के लिए यह राशि स्थानान्तरित की जायेगी

- (क) हरी, राम तथा शर्मा के पूँजी खातों के जमा में बराबर-बराबर  
(ख) हरी, राम तथा शर्मा के पूँजी खातों के नाम में बराबर-बराबर  
(ग) राम तथा शर्मा के पूँजी खातों के नाम में बराबर-बराबर  
(घ) राम तथा शर्मा के पूँजी खातों के जमा में बराबर-बराबर

**1**

On the retirement of Hari from the firm of 'Hari, Ram and Sharma' the balance-sheet showed a debit balance of ₹ 12,000 in the profit and loss account. For calculating the amount payable to Hari this balance will be transferred

- (a) to the credit of the capital accounts of Hari, Ram and Sharma equally  
(b) to the debit of the capital accounts of Hari, Ram and Sharma equally  
(c) to the debit of the capital accounts of Ram and Sharma equally  
(d) to the credit of the capital accounts of Ram and Sharma equally

2. कुमार, वर्मा तथा नरेश एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 2 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 23 जनवरी, 2015 को वर्मा का देहान्त हो गया। उसकी मृत्यु की तिथि तक के लाभ में वर्मा के भाग की गणना ₹ 2,350 की गई।

फर्म की पुस्तकों में इसके लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टि कीजिए।

**1**

Kumar, Verma and Naresh were partners in a firm sharing profit & loss in the ratio of 3 : 2 : 2. On 23<sup>rd</sup> January, 2015 Verma died. Verma's share of profit till the date of his death was calculated at ₹ 2,350.

Pass necessary journal entry for the same in the books of the firm.

3. अंशों के हरण का अर्थ दीजिए।

**1**

Give the meaning of forfeiture of shares.

4. जॉय लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किये । राशि निम्न प्रकार से देय थी :

आवेदन पर – ₹ 3 प्रति अंश

आबंटन पर – ₹ 4 प्रति अंश

प्रथम तथा अन्तिम याचना पर – शेष

95,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को अंशों का आबंटन कर दिया गया । सोनम ने, जिसे 500 अंशों का आबंटन किया गया था, आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया । गौतम ने उसको आबंटित किये गये 750 अंशों पर पूर्ण देय राशि का भुगतान आबंटन राशि के साथ कर दिया जिसमें प्रथम एवं अन्तिम याचना राशि भी सम्मिलित है । आबंटन पर प्राप्त राशि थी :

1

(क) ₹ 3,80,000

(ख) ₹ 3,78,000

(ग) ₹ 3,80,250

(घ) ₹ 4,00,250

Joy Ltd. issued 1,00,000 equity shares of ₹ 10 each. The amount was payable as follows :

On application – ₹ 3 per share.

On allotment – ₹ 4 per share.

On 1<sup>st</sup> and final call – balance

Applications for 95,000 shares were received and shares were allotted to all the applicants. Sonam to whom 500 shares were allotted failed to pay allotment money and Gautam paid his entire amount due including the amount due on first and final call on the 750 shares allotted to him along with allotment. The amount received on allotment was

(a) ₹ 3,80,000

(b) ₹ 3,78,000

(c) ₹ 3,80,250

(d) ₹ 4,00,250

5. साझेदारी संलेख के अभाव में फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य बाँटा जाता है :

(क) पूँजी अनुपात में

(ख) बराबर

(ग) फर्म के व्यवसाय के लिए लगाये गये समय के अनुपात में

(घ) साझेदारों की प्रबंधन योग्यता के अनुसार

1

In the absence of partnership deed the profits of a firm are divided among the partners :

(a) In the ratio of capital

(b) Equally

(c) In the ratio of time devoted for the firm's business

(d) According to the managerial abilities of the partners

6. क, ख, ग तथा घ एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । 1-1-2015 को उन्होंने लाभ के  $\frac{1}{10}$  भाग के लिए 'ड' को एक नया साझेदार बनाया । 'ड' अपने ख्याति प्रीमियम के लिए ₹ 10,000 नगद लाया जिसका लेखा, लेखाकार ने, पुस्तकों में सही कर दिया । उसके पश्चात् लेखापाल ने पुस्तकों में ख्याति को ₹ 1,00,000 में दर्शाया । क्या लेखापाल ने यह सही किया ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए ।

1

A, B, C and D were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4 : 3 : 2 : 1. On 1-1-2015 they admitted E as a new partner for  $\frac{1}{10}$  share in the profits. E brought ₹ 10,000 for his share of goodwill premium which was correctly recorded in the books by the accountant. The accountant showed goodwill at ₹ 1,00,000 in the books. Was the accountant correct in doing so ? Give reason in support of your answer.

7. प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग (i) 'पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन' तथा (ii) 'अंशों का प्रति क्रय' के अतिरिक्त तीन और उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है । इन उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए ।

3

Securities premium can also be utilized for three other purposes besides (i) 'Issuing fully paid bonus shares' and (ii) 'Buy back of shares'. State those purposes.

8. 1-4-2013 को जय तथा विजय ने, दूरवर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों को प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति हेतु, साझेदारी का निर्माण किया । उन्होंने क्रमशः ₹ 80,000 तथा ₹ 50,000 की पूँजी लगाई तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटने के लिए सहमत हुए । साझेदारी संलेख में पूँजी पर 9% प्रतिवर्ष ब्याज देने का प्रावधान है । वर्ष में फर्म ने ₹ 7,800 का लाभ कमाया ।

अपनी गणनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए 31-3-2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जय तथा विजय का 'लाभ-हानि नियोजन' खाता तैयार कीजिए ।

3

On 1-4-2013 Jay and Vijay, entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capitals of ₹ 80,000 and ₹ 50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio of 3 : 2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year the firm earned a profit of ₹ 7,800.

Showing your calculations clearly, prepare 'Profit and Loss Appropriation Account' of Jay and Vijay for the year ended 31-3-2014.

9. सन फार्मा लिमिटेड ₹ 100 प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों में विभक्त ₹ 1,00,00,000 की अधिकृत पूँजी के साथ पंजीकृत है। कम्पनी ने ₹ 40 प्रति अंश के प्रीमियम पर 50,000 अंशों का निर्गमन किया। एक अंशधारी, जिसके पास 500 अंश थे, ने ₹ 20 प्रति अंश की अन्तिम याचना का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों का हरण कर लिया गया।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की सूची VI भाग I के अनुसार कम्पनी के स्थिति विवरण में इसकी 'अंश पूँजी' प्रस्तुत कीजिए। 'खातों के लिए नोट्स' भी तैयार कीजिए।

3

Sun Pharma Ltd. is registered with an authorized capital of ₹ 1,00,00,000 divided into 1,00,000 equity shares of ₹ 100 each. The company issued 50,000 shares at a premium of ₹ 40 per shares. A shareholder holding 500 shares did not pay the final call of ₹ 20 per share. His shares were forfeited.

Present the 'Share Capital' in the Balance Sheet of the Company as per Schedule VI Part I of the Companies Act, 1956. Also prepare notes to accounts.

10. 'संगम वूलन्स लिमिटेड', लुधियाना, ऊनी कपड़ों के निर्माता तथा निर्यातक है। कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पिति जिले के 10 गाँवों को मुफ्त ऊनी कपड़े बाँटने का निर्णय लिया। कम्पनी ने इन गाँवों के 50 नौजवानों को भी अपनी नई लगाई गई फैक्ट्री में नौकरी देने का निर्णय लिया। कम्पनी ने ₹ 10 प्रत्येक के 40,000 समता अंशों तथा ₹ 100 प्रत्येक के 1,000 9% ऋणपत्रों का निर्गमन मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 5,00,000 की क्रय की गई मशीनरी के लिए किया।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। कम्पनी द्वारा समाज को संप्रेषित किए जाने वाले किसी एक मूल्य की पहचान भी कीजिए।

3

'Sangam Woollens Ltd.', Ludhiana, are the manufacturers and exporters of woollen garments. The company decided to distribute free of cost woollen garments to 10 villages of Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh. The company also decided to employ 50 young persons from these villages in its newly established factory. The company issued 40,000 equity shares of ₹ 10 each and 1,000 9% debentures of ₹ 100 each to the vendors for the purchase of machinery of ₹ 5,00,000.

Pass necessary Journal Entries. Also identify any one value that the company wants to communicate to the society.

11. सनी, हनी तथा रूपेश एक फर्म के साझेदार थे । 31-3-2014 को फर्म का स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

| देयताएँ      | राशि<br>₹       | सम्पत्तियाँ        | राशि<br>₹       |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| लेनदार       | 10,000          | संयंत्र तथा मशीनरी | 40,000          |
| सामान्य संचय | 30,000          | फर्नीचर            | 15,000          |
| पूँजी :      |                 | निवेश              | 20,000          |
| सनी          | 30,000          | देनदार             | 20,000          |
| हनी          | 30,000          | रहत्या             | 25,000          |
| रूपेश        | 20,000          |                    |                 |
|              | 80,000          |                    |                 |
|              | <b>1,20,000</b> |                    | <b>1,20,000</b> |

31-12-2014 को हनी का देहान्त हो गया । साझेदारी संलेख में प्रावधान है कि मृतक साझेदार के निष्पादकों को निम्न देय होगा :

- मृतक साझेदार के पूँजी खाते का शेष ।
- मृत्यु की तिथि तक पूँजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ।
- स्थिति विवरण में दर्शाये गये अवितरित लाभ अथवा हानि में उसका भाग ।
- उसकी मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में उसका भाग, जिसकी गणना पिछले वर्ष के विक्रय पर शुद्ध लाभ की दर के आधार पर की जायेगी । पिछले वर्ष के विक्रय पर शुद्ध लाभ की दर 20% थी । 31-12-2014 तक फर्म का विक्रय ₹ 6,00,000 था ।

उसके निष्पादकों को प्रस्तुत करने के लिए हनी का पूँजी खाता तैयार कीजिए ।

4

Sunny, Honey and Rupesh were partners in a firm. On 31-3-2014 their Balance Sheet was as follows :

| Liabilities     | Amount<br>₹     | Assets              | Amount<br>₹     |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Creditors       | 10,000          | Plant and machinery | 40,000          |
| General Reserve | 30,000          | Furniture           | 15,000          |
| Capitals :      |                 | Investments         | 20,000          |
| Sunny           | 30,000          | Debtors             | 20,000          |
| Honey           | 30,000          | Stock               | 25,000          |
| Rupesh          | 20,000          |                     |                 |
|                 | 80,000          |                     |                 |
|                 | <b>1,20,000</b> |                     | <b>1,20,000</b> |

Honey died on 31-12-2014. The partnership deed provides that the representatives of the deceased partner shall be entitled to :

- Balance in the capital account of the deceased partner.
- Interest on capital @ 6% p.a. upto the date of his death.
- His share in the undistributed profits or losses as per the balance sheet.
- His share in the profits of the firm till the date of his death, calculated on the basis of rate of net profit on sales of the previous year. The rate of net profit on sale of previous year was 20%. Sales of the firm during the year till 31-12-2014 was ₹ 6,00,000.

Prepare Honey's Capital Account to be presented to his executors.

12. कुमार, गुप्ता तथा कविता एक फर्म के साझेदार हैं तथा लाभ-हानि बराबर बाँटते हैं। फर्म का व्यवसाय डिब्बाबंद जूस का भण्डारण तथा वितरण करना है तथा इसके गोदाम शहर में तीन जगहों पर स्थित हैं। प्रत्येक गोदाम का प्रबंधन कुमार, गुप्ता तथा कविता व्यक्तिगत आधार पर करते हैं। गुप्ता द्वारा प्रबंधन किये जाने वाले गोदाम की व्यवसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण उसे ज्यादा समय लगाना पड़ रहा है। गुप्ता ने आग्रह किया कि लाभ में उसके भाग को बढ़ाया जाये, जिसे कुमार तथा कविता ने मान लिया। नए लाभ अनुपात के लिए 1 : 2 : 1 पर सहमति हुई। इसके लिए फर्म की ख्याति की गणना फर्म के पिछले पाँच वर्षों के औसत लाभ के दुगुने के आधार पर करने का निर्णय लिया गया। पिछले पाँच वर्षों का लाभ निम्न प्रकार से था :

| वर्ष      | लाभ      |
|-----------|----------|
|           | ₹        |
| I         | 4,00,000 |
| II        | 4,80,000 |
| III       | 7,33,000 |
| IV (हानि) | 33,000   |
| V         | 2,20,000 |

- (i) फर्म की ख्याति की गणना कीजिए।  
(ii) कुमार, गुप्ता तथा कविता के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण ख्याति के लेखांकन के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।

4

Kumar, Gupta and Kavita were partners in a firm sharing profits and losses equally. The firm was engaged in the storage and distribution of canned juice and its godowns were located at three different places in the city. Each godown was being managed individually by Kumar, Gupta and Kavita. Because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share in the profits of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. The new profit sharing ratio was agreed to be 1 : 2 : 1. For this purpose the goodwill of the firm was valued at two years purchase of the average profits of last five years. The profits of the last five years were as follows :

| Year      | Profit   |
|-----------|----------|
|           | ₹        |
| I         | 4,00,000 |
| II        | 4,80,000 |
| III       | 7,33,000 |
| IV (Loss) | 33,000   |
| V         | 2,20,000 |

You are required to :

- (i) Calculate the goodwill of the firm.  
(ii) Pass necessary Journal Entry for the treatment of goodwill on change in profit sharing ratio of Kumar, Gupta and Kavita.

13. बोरा, सिंह तथा अब्राहिम एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । 2-3-2015 को उनकी फर्म का विघटन हो गया । सम्पत्तियों का विक्रय किया गया तथा देयताओं का भुगतान किया गया । नीचे फर्म का वसूली खाता, पूँजी खाते तथा बैंक खाता दिया गया है । फर्म के लेखापाल ने इन खातों में कुछ राशियों की खतौनी छोड़ दी । सही राशियों की खतौनी करके इन खातों को पूरा कीजिए :

6

| नाम                 |                 | वसूली खाता                              |           | जमा             |  |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|--|
| विवरण               | राशि<br>₹       | विवरण                                   | राशि<br>₹ |                 |  |
| रहतिया              | 10,000          | डूबत ऋणों के लिए प्रावधान               | 5,000     |                 |  |
| देनदार              | 25,000          | विभिन्न लेनदार                          | 16,600    |                 |  |
| संयंत्र तथा मशीनरी  | 40,000          | देय बिल                                 | 3,400     |                 |  |
| बैंक :              |                 | बंधक ऋण                                 | 15,000    |                 |  |
| विभिन्न लेनदार      | 16,000          | बैंक - सम्पत्तियों का विक्रय :          |           |                 |  |
| देय बिल             | 3,400           | रहतिया                                  | 6,700     |                 |  |
| बंधक ऋण             | 15,000          | देनदार                                  | 12,500    |                 |  |
| बैंक (अदत्त मरम्मत) | 400             | संयंत्र तथा मशीनरी                      | 36,000    | 55,200          |  |
| बैंक (वसूली व्यय)   | 620             | बैंक-लेखा न की गई सम्पत्तियों का विक्रय |           | 6,220           |  |
|                     |                 | .....                                   |           | .....           |  |
|                     | <b>1,10,420</b> |                                         |           | <b>1,10,420</b> |  |

| नाम   |               |               |               | पूँजी खाते   |               |               |               | जमा |  |  |  |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----|--|--|--|
| विवरण | बोरा<br>₹     | सिंह<br>₹     | अब्राहिम<br>₹ | विवरण        | बोरा<br>₹     | सिंह<br>₹     | अब्राहिम<br>₹ |     |  |  |  |
| —     | —             | —             | —             | शेष आगे लाए  | 22,000        | 18,000        | 10,000        |     |  |  |  |
| —     | —             | —             | —             | सामान्य संचय | 2,500         | 1,500         | 500           |     |  |  |  |
|       | <b>24,500</b> | <b>19,500</b> | <b>10,500</b> |              | <b>24,500</b> | <b>19,500</b> | <b>10,500</b> |     |  |  |  |

**बैंक खाता**

| नाम                                |               | जमा                          |               |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| विवरण                              | राशि<br>₹     | विवरण                        | राशि<br>₹     |
| शेष आगे लाए                        | 19,500        | वसूली खाता (देयताएँ)         | 34,400        |
| वसूली खाता (सम्पत्तियों का विक्रय) | 55,200        | वसूली खाता (अपलिखित देयताएँ) | 400           |
| .....                              | .....         | .....                        | .....         |
|                                    | <b>80,920</b> |                              | <b>80,920</b> |

Bora, Singh and Ibrahim were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5 : 3 : 1. On 2-3-2015 their firm was dissolved. The assets were realized and the liabilities were paid off. Given below are the Realisation Account, Partners' Capital Accounts and Bank Account of the firm. The accountant of the firm left a few amounts unposted in these accounts. You are required to complete these accounts by posting the correct amounts.

| Dr.                           |                 | Realisation Account                |                 | Cr. |  |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----|--|
| Particulars                   | Amount<br>₹     | Particulars                        | Amount<br>₹     |     |  |
| To Stock                      | 10,000          | By Provision for bad debts         | 5,000           |     |  |
| To Debtors                    | 25,000          | By Sundry Creditors                | 16,600          |     |  |
| To Plant and Machinery        | 40,000          | By Bills Payable                   | 3,400           |     |  |
| To Bank :                     |                 | By Mortgage Loan                   | 15,000          |     |  |
| Sundry Creditors   16,000     |                 | By Bank – assets realized :        |                 |     |  |
| Bills Payable       3,400     |                 | Stock               6,700          |                 |     |  |
| Mortgage Loan    15,000       | 34,400          | Debtors           12,500           |                 |     |  |
| To Bank (Outstanding repairs) | 400             | Plant & Machinery <u>36,000</u>    | 55,200          |     |  |
| To Bank (Exp.)                | 620             | By Bank-unrecorded assets realized | 6,220           |     |  |
|                               |                 | By _____                           | —               |     |  |
|                               | <b>1,10,420</b> |                                    | <b>1,10,420</b> |     |  |

| Dr.         |               | Capital Accounts |               |                    |               | Cr.           |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Particulars | Bora<br>₹     | Singh<br>₹       | Ibrahim<br>₹  | Particulars        | Bora<br>₹     | Singh<br>₹    | Ibrahim<br>₹  |
| —           | —             | —                | —             | By Bal. b/d        | 22,000        | 18,000        | 10,000        |
| —           | —             | —                | —             | By General Reserve | 2,500         | 1,500         | 500           |
|             | <b>24,500</b> | <b>19,500</b>    | <b>10,500</b> |                    | <b>24,500</b> | <b>19,500</b> | <b>10,500</b> |

#### Bank Account

| Dr.                              |               | Cr.                                      |               |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| Particulars                      | Amount<br>₹   | Particulars                              | Amount<br>₹   |
| To Bal. b/d                      | 19,500        | By Realisation (liabilities)             | 34,400        |
| To Realisation (assets realized) | 55,200        | By Realisation (unrecorded liabilities ) | 400           |
| _____                            | _____         | By _____                                 | _____         |
|                                  |               | By _____                                 | _____         |
|                                  | <b>80,920</b> |                                          | <b>80,920</b> |

14. 1-4-2010 को साहिल तथा चारू ने 4 : 3 अनुपात में लाभ बाँटने के लिए एक साझेदारी बनाई । 1-4-2012 को उन्होंने तनु को लाभ के  $\frac{1}{5}$  भाग के लिए एक नया साझेदार बनाया जिसे तनु ने साहिल तथा चारू से बराबर अधिग्रहित किया । 31-3-2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए साहिल, चारू तथा तनु ने सामान्य लाभ दर से अधिक लाभ अर्जित किया । अतः उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने का निर्णय किया । अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने 1-4-2013 को लाभ के  $\frac{1}{7}$  भाग के लिए पुनीत को एक नया साझेदार बनाया जिसे उसने साहिल तथा चारू से 7 : 3 के अनुपात में अधिग्रहित किया ।

गणना कीजिए :

- (i) 2012-13 वर्ष के लिए साहिल, चारू तथा तनु का नया लाभ अनुपात ।
- (ii) पुनीत के प्रवेश पर साहिल, चारू, तनु तथा पुनीत का नया लाभ अनुपात ।

6

On 1-4-2010 Sahil and Charu entered into partnership for sharing profits in the ratio of 4 : 3. They admitted Tanu as a new partner on 1-4-2012 for  $\frac{1}{5}$ th share which she acquired equally from Sahil and Charu. Sahil, Charu and Tanu earned profits at a higher rate than the normal rate of return for the year ended 31-3-2013. Therefore, they decided to expand their business. To meet the requirements of additional capital they admitted Puneet as a new partner on 1-4-2013 for  $\frac{1}{7}$ th share in profits which he acquired from Sahil and Charu in 7 : 3 ratio.

Calculate :

- (i) New profit sharing ratio of Sahil, Charu and Tanu for the year 2012-13.
- (ii) New profit sharing ratio of Sahil, Charu, Tanu and Puneet on Puneet's admission.

15. भारत लिमिटेड की अधिकृत पूँजी ₹ 20,00,000 थी, जो ₹ 10 प्रत्येक के 2,00,000 समता अंशों में विभक्त थी । कम्पनी ने 1,00,000 अंशों का निर्गमन किया तथा 31-3-2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभांश प्रति अंश ₹ 2 था । कम्पनी के प्रबंधन ने इसके उत्पादों को पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा बांग्लादेश में निर्यात करने का निर्णय लिया । अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम्पनी के वित्तीय प्रबंधक ने इसके निदेशक मण्डल के सम्मुख निम्नलिखित तीन विकल्प रखे :

- (i) 54,000 समता अंशों का निर्गमन ।
- (ii) भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक से ऋण प्राप्त किया जाये । ऋण 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध था ।
- (iii) 9% ऋणपत्रों का 10% के बट्टे पर निर्गमन किया जाए ।

उपलब्ध विकल्पों की तुलना करने के पश्चात् कम्पनी ने 1-4-2008 को ₹ 100 प्रत्येक के 6,000 ऋणपत्रों को 10% के बट्टे पर निर्गमित करने का निर्णय लिया । इन ऋणपत्रों का शोधन तीसरे वर्ष की समाप्ति से आरम्भ करके चार किश्तों में करना था । तीसरे, चौथे, पाँचवें तथा छठें वर्ष के अंत में शोधन किये जाने वाले ऋणपत्रों की राशि निम्न प्रकार थी :

| वर्ष | राशि<br>₹ |
|------|-----------|
| III  | 1,00,000  |
| IV   | 1,00,000  |
| V    | 2,00,000  |
| VI   | 2,00,000  |

2008-09 से 2013-14 वर्षों के लिए 9% ऋणपत्र खाता तैयार कीजिए ।

**6**

Bharat Ltd. had an authorized capital of ₹ 20,00,000 divided into 2,00,000 equity shares of ₹ 10 each. The company issued 1,00,000 shares and the dividend paid per share was ₹ 2 for the year ended 31-3-2008. The management of the company decided to export its products to the neighbouring countries Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Bangladesh. To meet the requirement of additional funds the financial manager of the company put up the following three alternatives before its Board of Directors :

- Issue 54,000 equity shares.
- Obtain a loan from Import and Export Bank of India. The loan was available at 12% per annum interest.
- To issue 9% Debentures at a discount of 10%.

After comparing the available alternatives the company decided on 1-4-2008 to issue 6,000 9% debentures of ₹ 100 each at a discount of 10%. These debentures were redeemable in four instalments starting from the end of third year. The amount of debentures to be redeemed at the end of third, fourth, fifth and sixth year was as follows :

| Year | Profit<br>₹ |
|------|-------------|
| III  | 1,00,000    |
| IV   | 1,00,000    |
| V    | 2,00,000    |
| VI   | 2,00,000    |

Prepare 9% Debentures Account for the years 2008-09 to 2013-14.

16. 'वेलनेस लिमिटेड' ने ₹ 10 प्रत्येक के 40,000 अंशों को 10% के बट्टे पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये । राशि का भुगतान निम्न प्रकार से करना था :

8

आवेदन तथा आबंटन पर – ₹ 4 प्रति अंश

प्रथम याचना पर – ₹ 3 प्रति अंश

दूसरी तथा अन्तिम याचना पर – शेष

39,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को अंशों का आबंटन कर दिया गया ।

भुगतान निम्न दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त हुआ :

30,000 अंशों पर – पूर्ण राशि

6,000 अंशों पर – ₹ 7 प्रति अंश

3,000 अंशों पर – ₹ 4 प्रति अंश

निदेशकों ने उन अंशों का हरण कर लिया जिन पर ₹ 7 प्रति अंश से कम प्राप्त हुए थे । हरण किये गए अंशों को ₹ 8 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनः निर्गमित कर दिया गया ।

उपरोक्त लेनदेनों के लिए कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

**अथवा**

'शुभम लिमिटेड' ने ₹ 10 प्रत्येक के 12,000 समता अंशों को ₹ 3 प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये । राशि का भुगतान निम्न प्रकार से करना था :

आवेदन तथा आबंटन पर – ₹ 6 प्रति अंश (प्रीमियम सहित)

प्रथम याचना पर – ₹ 4 प्रति अंश

दूसरी तथा अन्तिम याचना पर – शेष

18,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए । सभी आवेदकों को अनुपातिक आधार पर अंशों का आबंटन कर दिया गया । आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन प्रथम याचना पर देय राशि में कर लिया गया ।

सभी याचना माँग ली गई तथा प्राप्त हो गई । विभू जिसे 120 अंशों का आबंटन किया गया था, ने प्रथम याचना तथा दूसरी व अन्तिम याचना का भुगतान नहीं किया । उसके अंशों का हरण कर लिया गया । हरण किये गये अंशों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम बट्टे पर निर्गमित कर दिया गया ।

उपरोक्त लेनदेनों के लिए कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

‘Wellness Ltd.’ invited applications for issuing 40,000 equity shares of ₹ 10 each at a discount of 10%. The amount was payable as follows :

On application and allotment – ₹ 4 per share.

On first call – ₹ 3 per share.

On second and final call – The balance.

Applications for 39,000 shares were received and allotment was made to all the applicants.

The payment was received as per the following details :

On 30,000 shares – Full amount.

On 6,000 shares – ₹ 7 per share.

On 3,000 shares – ₹ 4 per share.

The Directors forfeited those shares on which less than ₹ 7 per share were received. The forfeited shares were re-issued at ₹ 8 per share as fully paid up.

Pass necessary Journal Entries in the books of the company for the above transactions.

**OR**

‘Subham Ltd.’ invited applications for issuing 12,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 3 per share. The amount was payable as follows :

On application and allotment – ₹ 6 per share. (Including Premium)

On first call – ₹ 4 per share.

On second and final call – The balance.

Applications for 18,000 shares were received and pro-rata allotment was made to all the applicants.

Excess money received with applications was adjusted towards sums due on first call. All calls were made and were duly received except the first call and second and final call on 120 shares allotted to Vibhu. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at the maximum permissible discount as per the provisions of the Companies Act, 1956.

Pass necessary Journal Entries for the above transactions in the books of the company.

17. चारू तथा हर्षा एक फर्म में साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । 1-4-2014 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

8

**1-4-2014 को चारू तथा हर्षा का स्थिति विवरण**

| देयताएँ                   | राशि<br>₹     | सम्पत्तियाँ  | राशि<br>₹     |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| लेनदार                    | 17,000        | रोकड़        | 6,000         |
| सामान्य संचय              | 4,000         | देनदार       | 15,000        |
| कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष  | 9,000         | निवेश        | 20,000        |
| निवेश उतार-चढ़ाव कोष      | 11,000        | संयंत्र      | 14,000        |
| डूबत ऋणों के लिए प्रावधान | 2,000         | भूमि तथा भवन | 38,000        |
| पूँजी :                   |               |              |               |
| चारू                      | 30,000        |              |               |
| हर्षा                     | <u>20,000</u> |              |               |
|                           | <b>50,000</b> |              |               |
|                           | <b>93,000</b> |              | <b>93,000</b> |

उपरोक्त तिथि को फर्म में लाभ में  $\frac{1}{4}$  भाग के लिए निम्न शर्तों पर वैशाली को एक नया साझेदार बनाया गया :

- (क) वैशाली ₹ 20,000 अपनी पूँजी के लिए तथा ₹ 4,000 अपने भाग के ख्याति-प्रीमियम के लिए लायेगी ।
- (ख) सभी देनदारों को प्राप्य-योग्य समझा गया ।
- (ग) निवेशों का बाजार मूल्य ₹ 15,000 था ।
- (घ) कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 6,000 की एक देयता थी ।
- (ङ) चारू तथा हर्षा के पूँजी खातों का समायोजन वैशाली की पूँजी के आधार पर किया जायेगा । इस उद्देश्य के लिए चालू खाते खोले जायेंगे ।

पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए ।

**अथवा**

अमित, बालन तथा चन्दर एक फर्म के साझेदार थे तथा क्रमशः  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  तथा  $\frac{1}{6}$  के अनुपात में लाभ बाँटते थे ।  
1-4-2014 को चन्दर ने अवकाश ग्रहण किया । चन्दर के अवकाश ग्रहण करते समय फर्म का स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

**1-4-2014 को अमित, बालन तथा चन्दर का स्थिति विवरण**

| देयताएँ        | राशि<br>₹       | सम्पत्तियाँ    | राशि<br>₹       |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| विभिन्न लेनदार | 12,600          | बैंक           | 4,100           |
| भविष्य निधि    | 3,000           | देनदार         | 30,000          |
| सामान्य संचय   | 9,000           | घटा : प्रावधान | <u>1,000</u>    |
| पूँजी :        |                 | रहितिया        | 25,000          |
| अमित           | 40,000          | निवेश          | 10,000          |
| बालन           | 36,500          | पेटेन्ट्स      | 5,000           |
| चन्दर          | <u>20,000</u>   | मशीनरी         | 48,000          |
|                | <b>1,21,100</b> |                | <b>1,21,100</b> |

यह समझौता हुआ कि :

- (क) ख्याति का मूल्यांकन ₹ 27,000 पर किया जायेगा ।
- (ख) मशीनरी पर 10% मूल्यहास लगाना था ।
- (ग) पेटेन्ट्स को 20% कम करना था ।
- (घ) भविष्य निधि देयता का अनुमान ₹ 2,400 था ।
- (ङ) चन्दर ने निवेश को ₹ 15,800 में ले लिया ।
- (च) अमित तथा बालन ने चालू खाते खोल कर अपनी पूँजी को अपने लाभ अनुपात में समायोजित करने का निर्णय लिया ।

चन्दर के अवकाश ग्रहण करने पर पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए ।

Charu and Harsha were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3 : 2. On 1-4-2014 their Balance Sheet was as follows :

**Balance Sheet of Charu and Harsha as on 1-4-2014**

| <b>Liabilities</b>                | <b>Amount<br/>₹</b> | <b>Assets</b>     | <b>Amount<br/>₹</b> |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Creditors                         | 17,000              | Cash              | 6,000               |
| General Reserve                   | 4,000               | Debtors           | 15,000              |
| Workmen Compensation Fund         | 9,000               | Investments       | 20,000              |
| Investment Fluctuation Fund       | 11,000              | Plant             | 14,000              |
| Provision for bad debts           | 2,000               | Land and Building | 38,000              |
| Capitals :                        |                     |                   |                     |
| Charu                      30,000 |                     |                   |                     |
| Harsha <u>20,000</u>              | 50,000              |                   |                     |
|                                   | <b>93,000</b>       |                   | <b>93,000</b>       |

On the above date Vaishali was admitted for  $\frac{1}{4}$ <sup>th</sup> share in the profits of the firm on the following terms :

- Vaishali will bring ₹ 20,000 for her capital and ₹ 4,000 for her share of goodwill premium.
- All debtors were considered good.
- The market value of investments was ₹ 15,000.
- There was a liability of ₹ 6,000 for workmen compensation.
- Capital accounts of Charu and Harsha are to be adjusted on the basis of Vaishali's capital by opening current accounts.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Accounts.

**OR**

Amit, Balan and Chander were partners in a firm sharing profits in the proportion of  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  and  $\frac{1}{6}$  respectively. Chander retired on 1-4-2014. The Balance Sheet of the firm on the date of Chander's retirement was as follows :

**Balance Sheet of Amit, Balan and Chander as on 1-4-2014**

| Liabilities      | Amount<br>₹     | Assets           | Amount<br>₹     |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Sundry Creditors | 12,600          | Bank             | 4,100           |
| Provident Fund   | 3,000           | Debtors          | 30,000          |
| General Reserve  | 9,000           | Less : Provision | <u>1,000</u>    |
| Capitals :       |                 | Stock            | 25,000          |
| Amit             | 40,000          | Investments      | 10,000          |
| Balan            | 36,500          | Patents          | 5,000           |
| Chander          | <u>20,000</u>   | Machinery        | 48,000          |
|                  | <b>1,21,100</b> |                  | <b>1,21,100</b> |

It was agreed that :

- Goodwill will be valued at ₹ 27,000.
- Depreciation of 10% was to be provided on machinery.
- Patents were to be reduced by 20%.
- Liability on account of Provident Fund was estimated at ₹ 2,400.
- Chander took over investments for ₹ 15,800.
- Amit and Balan decided to adjust their capitals in proportion of their profit sharing ratio by opening current accounts.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Accounts on Chander's retirement.

**भाग – ख**

**PART – B**

**(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)**

**(Financial Statements Analysis)**

18. निम्न में से किसको रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है ?

- बैंकों के पास नगद शेष
- 100 दिनों की परिपक्वता के बैंक जमा
- चैक तथा ड्राफ्ट हस्ते तथा
- रोकड़ हस्ते

1

Which of the following is not included in cash and cash equivalents ?

- (a) Balances with banks
- (b) Bank deposits with 100 days of maturity
- (c) Cheques and drafts on hand and
- (d) Cash on hand

19. शारदा लिमिटेड का रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय 'स्थायी परिसम्पत्तियों पर लगाये गये मूल्यहास' को परिचालन गतिविधियों की गणना करने के लिए शुद्ध लाभ में जोड़ दिया गया । क्या लेखापाल ऐसा करने में सही था ? कारण बताइए ।

1

While preparing Cash Flow Statement of Sharda Ltd. 'Depreciation provided on fixed assets' was added to net profit to calculate cash flow from operating activities. Was the accountant correct in doing so ? Give reason.

20. कम्पनी अधिनियम, 1956 की सूची VI भाग I के अनुसार निम्न मर्दे किन-किन शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई जायेगी ?
- (i) रोकड़ हस्ते
  - (ii) खनन अधिकार
  - (iii) अल्पकालीन जमा
  - (iv) ऋणपत्र शोधन संचय
  - (v) अग्रिम प्राप्त आय
  - (vi) लाभ-हानि विवरण का शेष
  - (vii) कार्यालय संयंत्र तथा
  - (viii) कार्य प्रगति पर

4

Under which heads the following items will be placed in the Balance Sheet of a company as per Schedule VI Part I of the Companies Act, 1956 ?

- (i) Cash in hand
- (ii) Mining Rights
- (iii) Short term deposits
- (iv) Debenture Redemption Reserve
- (v) Income received in advance
- (vi) Balance of the Statement of Profit and Loss
- (vii) Office Equipments and
- (viii) Work-in-progress.

21. नवीन लिमिटेड से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना से (क) निवेश पर प्रत्याय तथा (ख) कुल सम्पत्ति ऋण अनुपात की गणना कीजिए :

**सूचना :** स्थायी सम्पत्तियाँ ₹ 75,00,000; चालू सम्पत्तियाँ ₹ 40,00,000; चालू देयताएँ ₹ 27,00,000; 12% ऋणपत्र ₹ 80,00,000 तथा ब्याज, कर एवं लाभांश से पूर्व शुद्ध लाभ ₹ 14,50,000 ।

4

From the following information related to Naveen Ltd. calculate (a) Return on Investment and (b) Total Assets to Debt Ratio.

**Information :** Fixed Assets ₹ 75,00,000; Current Assets ₹ 40,00,000; Current Liabilities ₹ 27,00,000; 12% Debentures ₹ 80,00,000 and Net Profit before Interest, Tax and Dividend ₹ 14,50,000.

22. एक विज्ञापन कम्पनी यश लिमिटेड का आदर्श-वाक्य 'गरिमा सहित सेवा' है । इसका प्रबंधन तथा कार्य-बल मेहनती, ईमानदार तथा अभिप्रेरित है । 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष में कम्पनी का शुद्ध लाभ दो गुना हो गया । अपने निष्पादन से उत्साहित कम्पनी ने अपने सभी कर्मचारियों को एक मास का अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय किया । 31 मार्च, 2013 तथा 2014 को समाप्त हुए वर्षों के लिए कम्पनी का तुलनात्मक लाभ-हानि विवरण निम्न प्रकार से हैं :

**यश लिमिटेड**  
**तुलनात्मक लाभ-हानि विवरण**

| विवरण                 | नोट सं. | 2012-13<br>₹ | 2013-14<br>₹ | निरपेक्ष परिवर्तन ₹ | % परिवर्तन |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| कार्यकलापों से आय     |         | 10,00,000    | 15,00,000    | 5,00,000            | 50         |
| घटा कर्मचारी हित व्यय |         | 6,00,000     | 7,00,000     | 1,00,000            | 16.67      |
| कर पूर्व लाभ          |         | 4,00,000     | 8,00,000     | 4,00,000            | 100        |
| कर दर 25%             |         | 1,00,000     | 2,00,000     | 1,00,000            | 100        |
| कर पश्चात् लाभ        |         | 3,00,000     | 6,00,000     | 3,00,000            | 100        |

(क) 31 मार्च, 2013 तथा 2014 के लिए शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए ।

(ख) किन्हीं दो अनुपातों की पहचान कीजिए जिन्हें यश लिमिटेड प्रचारित करना चाहती है ।

4

The motto of Yash Ltd., an advertising company is 'Service With Dignity'. Its management and work force is hard-working, honest and motivated. The net profit of the company doubled during the year ended 31-3-2014. Encouraged by its performance company decided to give one month extra salary to all its employees. Following is the Comparative Statement of Profit and Loss of the company for the years ended 31<sup>st</sup> March 2013 and 2014.

**Yash Ltd.****Comparative Statements of Profit and Loss.**

| Particulars                     | Note No. | 2012-13<br>₹ | 2013-14<br>₹ | Absolute Change<br>₹ | % Change |
|---------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| Revenue from operations         |          | 10,00,000    | 15,00,000    | 5,00,000             | 50       |
| Less Employees benefit expenses |          | 6,00,000     | 7,00,000     | 1,00,000             | 16.67    |
| Profit before tax               |          | 4,00,000     | 8,00,000     | 4,00,000             | 100      |
| Tax Rate 25%                    |          | 1,00,000     | 2,00,000     | 1,00,000             | 100      |
| Profit after tax                |          | 3,00,000     | 6,00,000     | 3,00,000             | 100      |

(a) Calculate Net Profit Ratio for the years ending 31<sup>st</sup> March, 2013 and 2014.

(b) Identify any two values which Yash Ltd. is trying to propagate.

23. 31-3-2014 को थर्मल पावर लिमिटेड का स्थिति विवरण निम्न प्रकार से है :

**थर्मल पावर लिमिटेड****31-3-2014 को स्थिति विवरण**

| विवरण                      | नोट सं. | 2013-14<br>₹ | 2012-13<br>₹ |
|----------------------------|---------|--------------|--------------|
| <b>I. समता तथा देयताएँ</b> |         |              |              |
| (1) अंशधारी निधियाँ        |         |              |              |
| (क) अंश पूँजी              |         | 12,00,000    | 11,00,000    |
| (ख) संचय एवं आधिक्य        | I       | 3,00,000     | 2,00,000     |
| (2) अचल देयताएँ            |         |              |              |
| दीर्घकालीन ऋण              |         | 2,40,000     | 1,70,000     |
| (3) चालू देयताएँ           |         |              |              |
| (क) व्यापारिक देयताएँ      |         | 1,79,000     | 2,04,000     |
| (ख) लघुकालीन प्रावधान      |         | 50,000       | 77,000       |
| कुल योग                    |         | 19,69,000    | 17,51,000    |
| <b>II. परिसम्पत्तियाँ</b>  |         |              |              |
| (1) अचल परिसम्पत्तियाँ     |         |              |              |
| (क) स्थायी परिसम्पत्तियाँ  |         |              |              |
| (i) मूर्त                  | 2       | 10,70,000    | 8,50,000     |
| (ii) अमूर्त                | 3       | 40,000       | 1,12,000     |
| (2) चालू देयताएँ           |         |              |              |
| (क) चालू निवेश             |         | 2,40,000     | 1,50,000     |
| (ख) स्टॉक (मालसूची)        |         | 1,29,000     | 1,21,000     |
| (ग) व्यापारिक प्राप्तियाँ  |         | 1,70,000     | 1,43,000     |
| (घ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य  |         | 3,20,000     | 3,75,000     |
| कुल योग                    |         | 19,69,000    | 17,51,000    |

खातों के नोट्स :

| नोट सं. | विवरण                          | 2013-14<br>₹ | 2012-13<br>₹ |
|---------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1.      | संचय एवं आधिक्य                |              |              |
|         | आधिक्य (लाभ-हानि विवरण का शेष) | 3,00,000     | 2,00,000     |
| 2.      | मूर्त परिसम्पत्तियाँ           |              |              |
|         | मशीनरी                         | 12,70,000    | 10,00,000    |
|         | घटा : एकत्रित मूल्यहास         | (2,00,000)   | (1,50,000)   |
| 3.      | अमूर्त परिसम्पत्तियाँ          |              |              |
|         | ख्याति                         | 40,000       | 1,12,000     |

**अतिरिक्त सूचना :**

वर्ष में एक मशीन, जिसकी लागत ₹ 24,000 थी तथा जिस पर एकत्रित मूल्यहास ₹ 16,000 था, को ₹ 6,000 में बेचा गया ।

रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए ।

6

Following is the Balance Sheet of Thermal Power Ltd. as at 31-3-2014 :

**Thermal Power Ltd.**

**Balance Sheet as at 31-3-2014**

| Particulars                      | Note No. | 2013-14<br>₹ | 2012-13<br>₹ |
|----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>I. EQUITY AND LIABILITIES</b> |          |              |              |
| (1) Shareholders Funds           |          |              |              |
| (a) Share Capital                |          | 12,00,000    | 11,00,000    |
| (b) Reserves and Surplus         | 1        | 3,00,000     | 2,00,000     |
| (2) Non Current Liabilities      |          |              |              |
| Long Term Borrowings             |          | 2,40,000     | 1,70,000     |
| (3) Current Liabilities          |          |              |              |
| (a) Trade Payables               |          | 1,79,000     | 2,04,000     |
| (b) Short Term Provisions        |          | 50,000       | 77,000       |
| Total                            |          | 19,69,000    | 17,51,000    |
| <b>II. ASSETS</b>                |          |              |              |
| (1) Non-current Assets           |          |              |              |
| (a) Fixed Assets                 |          |              |              |
| (i) Tangible                     | 2        | 10,70,000    | 8,50,000     |
| (ii) Intangible                  | 3        | 40,000       | 1,12,000     |
| (2) Current Assets               |          |              |              |
| (a) Current Investments          |          | 2,40,000     | 1,50,000     |
| (b) Inventories                  |          | 1,29,000     | 1,21,000     |
| (c) Trade Receivables            |          | 1,70,000     | 1,43,000     |
| (d) Cash and Cash equivalents    |          | 3,20,000     | 3,75,000     |
| Total                            |          | 19,69,000    | 17,51,000    |

Notes to Accounts :

| S. No. | Particulars                                       | 2013-14<br>₹ | 2012-13<br>₹ |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.     | Reserves and Surplus                              |              |              |
|        | Surplus (balance in statement of Profit and Loss) | 3,00,000     | 2,00,000     |
| 2.     | Tangible Assets                                   |              |              |
|        | Machinery                                         | 12,70,000    | 10,00,000    |
|        | Less : Accumulated Depreciation                   | (2,00,000)   | (1,50,000)   |
| 3.     | Intangible Assets                                 |              |              |
|        | Goodwill                                          | 40,000       | 1,12,000     |

**Additional information :**

During the year a piece of machinery, costing ₹ 24,000 on which accumulated depreciation was ₹ 16,000, was sold for ₹ 6,000.

Prepare Cash Flow Statement.

**भाग – ग  
PART – C**

**(अभिकलित्र लेखांकन)  
(Computerized Accounting)**

18. 'डी.बी.एम.एस'. से अभिप्राय है :

- (क) लाभांश आधारित प्रबन्ध प्रणाली ।
- (ख) डाटा आधारित प्रबन्ध सॉफ्टवेयर ।
- (ग) डाटा आधारित प्रबन्ध प्रणाली ।
- (घ) आधारभूत मुख्य सॉफ्टवेयर का विभाजन ।

1

'DBMS' stands for :

- (a) Dividend Based Management System.
- (b) Data Based Management Software.
- (c) Data Base Management System.
- (d) Divide the Basic Master Software.

19. एक अनुक्रमिक कोड से तात्पर्य उस कोड से है जो किसी प्रपत्र पर उस समय प्रयोग में लाया जाता है जब :
- (क) संख्याओं एवं अक्षरों को एक निरन्तर क्रम प्रदान किया जाता है ।
  - (ख) जब प्रपत्रों को खाता शीर्षक प्रदान किए जाते हैं ।
  - (ग) जब प्रपत्रों को विशेष नाम दिए जाते हैं ।
  - (घ) जब प्रपत्रों को उनके नामों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ।

1

A sequential code refers to a code applied to some document where :

- (a) Numbers and letters are assigned in consecutive order.
- (b) Where account heads are assigned to documents.
- (c) Special names are given to documents.
- (d) When documents are arranged in sequence of their names.

20. 'टेलर्ड लेखांकन सॉफ्टवेयर' का क्या अर्थ है ? समझाइए ।

4

What is meant by 'Tailored accounting software' ? Explain.

21. एक वेतन बिल द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना को समझाइए ।

4

Explain the information provided by a salary bill.

22. लेखांकन सॉफ्टवेयर में सुरक्षा, निश्चितता तथा गोपनीयता जैसी विशेषताओं का होना क्यों आवश्यक है ? ऐसे दो साधनों को समझाइए जो डाटा को सुरक्षा प्रदान करते हैं ।

4

Why is it necessary to have safety, security and confidentiality features in accounting software ? Explain any two tools which provide data safety.

23. उस वित्तीय कार्य का नाम बताते हुए उसे समझाइए जो उस प्रतिभूति पर अर्जित ब्याज की गणना करता है जो आवधिक ब्याज का भुगतान करती है ।

6

Name and explain the function which calculates periodic payment of an annuity assuming equal payments and a constant rate of interest.



| Q. Set No.    |                                                                                                                       |            | Marking Scheme 2014-15<br>Accountancy (055)<br><b>Delhi – 67/1/3</b><br>Expected Answers / Value points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Distribution<br>of marks                      |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----|--------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--------|
| 67/<br>1/1    | 67/<br>1/2                                                                                                            | 67/<br>1/3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
| 3             | 4                                                                                                                     | 1          | <b>Q. On the retirement.....Sharma equally.</b><br><br><b>Ans.</b><br>(b) to the debit of the capital accounts of Hari, Ram and Sharma equally.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Mark                                        |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
| 4             | 3                                                                                                                     | 2          | <b>Q. Kumar, Verma and Naresh.....of the firm.</b><br><br><b>Ans.</b><br><br><div align="center"><b>Journal</b></div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th><th>Particulars</th><th>LF</th><th>Dr (₹)</th><th>Cr (₹)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015<br/>Jan23</td><td>Profit &amp; Loss Suspense A/c Dr.<br/>To Verma's Capital A/c<br/>(Verma's share of profit upto 23<sup>rd</sup> June 2015)</td><td></td><td>2,350</td><td>2,350</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                         | Date                                          | Particulars | LF | Dr (₹) | Cr (₹) | 2015<br>Jan23 | Profit & Loss Suspense A/c Dr.<br>To Verma's Capital A/c<br>(Verma's share of profit upto 23 <sup>rd</sup> June 2015) |  | 2,350 | 2,350 | 1 Mark |
| Date          | Particulars                                                                                                           | LF         | Dr (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cr (₹)                                        |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
| 2015<br>Jan23 | Profit & Loss Suspense A/c Dr.<br>To Verma's Capital A/c<br>(Verma's share of profit upto 23 <sup>rd</sup> June 2015) |            | 2,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,350                                         |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
| 5             | 2                                                                                                                     | 3          | <b>Q. Give the..... forfeiture of share.</b><br><br><b>Ans.</b><br>Forfeiture of shares means cancellation of shares allotted and treating actually received amount as forfeited.<br><br><div align="center">[ or any other suitable meaning ]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Mark                                        |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
| 6             | 1                                                                                                                     | 4          | <b>Q. Joy Ltd. Issued.....allotment was.</b><br><br><b>Ans. (C) ₹ 3,80,250</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Mark                                        |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
| 1             | 6                                                                                                                     | 5          | <b>Q. In the absence of..... partners.</b><br><br><b>Ans. (b) Equally</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Mark                                        |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
| 2             | 5                                                                                                                     | 6          | <b>Q. A,B,C and D..... of your answer.</b><br><br><b>Ans. No, the accountant was not correct.</b><br><b>Reason:</b> Since the new partner brought his share of goodwill in cash it cannot be shown in the books.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (½ + ½)<br>=<br><b>1 Mark</b>                 |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
| -             | -                                                                                                                     | 7          | <b>Q. State the three..... can be utilised.</b><br><b>Ans.</b><br><b>Ans.</b> The amount received as securities premium can be used other than 'issue of bonus shares' and 'buy back of shares' for the following purposes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• In writing off the preliminary expenses of the company.</li> <li>• For writing off the expenses, commission or discount allowed on issue of shares or debentures of the company.</li> <li>• For providing the premium payable on redemption of redeemable preference shares or debentures of the company.</li> </ul> | <b>1 Mark Each</b><br><br>=<br><b>3 Marks</b> |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |
| 8             | 8                                                                                                                     | 8          | <b>Q. On 1-4-2013 Jay and Vijay.....year ended 31-3-2014.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |             |    |        |        |               |                                                                                                                       |  |       |       |        |

|                                                             |                                                                |                          | <div>Ans.</div> <div>In the books of Jay and Vijay<br/>Profit &amp; Loss Appropriation A/c<br/>For the year ended 31<sup>st</sup> March 2014</div> <div><div>Dr.</div><table><thead><tr><th>Particulars</th><th>Amount (₹)</th><th>Particulars</th><th>Amount (₹)</th></tr></thead><tbody><tr><td>To Interest on Capital:<br/>Jay's Capital A/c 7800x8/13=4800</td><td><math>\frac{1}{2}</math></td><td>By Profit for the year</td><td>7,800</td></tr><tr><td>Vijay'sCapitalA/c7800x5/13=3000</td><td><math>\frac{1}{2}</math></td><td></td><td><math>\frac{1}{2}</math></td></tr><tr><td></td><td>7,800</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><u>7,800</u></td><td></td><td><u>7,800</u></td></tr></tbody></table><div>Cr.</div></div> <div>Working notes:<br/>Calculation of Interest on Capital:<br/><div><div>(₹)</div><div><div>a) Interest on Jay's Capital: 7,200</div><div>b) Interest on Vijay's Capital: 4,500</div><div>Total: 11,700</div></div><div><math>\frac{1}{2}</math></div></div><div>The available profit is ₹ 7,800 since the profit is less than interest, the available profit will be distributed in the ratio of interest i.e. 7,200:4,500 or 8:5.</div></div>        | Particulars | Amount (₹)  | Particulars              | Amount (₹)                | To Interest on Capital:<br>Jay's Capital A/c 7800x8/13=4800 | $\frac{1}{2}$ | By Profit for the year                                         | 7,800 | Vijay'sCapitalA/c7800x5/13=3000 | $\frac{1}{2}$ |              | $\frac{1}{2}$ |                  | 7,800 |           |  |             | <u>7,800</u> |                          | <u>7,800</u> | <div>=</div> <div>3 marks</div> |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------|-----------|--|-------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Particulars                                                 | Amount (₹)                                                     | Particulars              | Amount (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| To Interest on Capital:<br>Jay's Capital A/c 7800x8/13=4800 | $\frac{1}{2}$                                                  | By Profit for the year   | 7,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| Vijay'sCapitalA/c7800x5/13=3000                             | $\frac{1}{2}$                                                  |                          | $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
|                                                             | 7,800                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
|                                                             | <u>7,800</u>                                                   |                          | <u>7,800</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| -                                                           | -                                                              | 9                        | <div>Q. 'Sun Pharma Ltd. ....accounts.</div> <div>Ans.</div> <div>Balance Sheet of Sun Pharma Ltd.<br/>As at .....(As per revised schedule VI)</div> <table><thead><tr><th>Particulars</th><th>Note No.</th><th>Amount ₹<br/>Current year</th><th>Amount ₹<br/>Previous year</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>EQUITY &amp; LIABILITIES</b></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I Shareholder's funds :</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a) Share Capital</td><td>1</td><td>49,90,000</td><td></td></tr></tbody></table> <div>Notes to Accounts :</div> <table><thead><tr><th>Particulars</th><th>₹</th></tr></thead><tbody><tr><td>(1) <u>Share Capital</u></td><td></td></tr><tr><td><u>Authorised Capital :</u></td><td></td></tr><tr><td>1,00,000 equity shares of ₹ 100 each</td><td>1,00,00,000</td></tr><tr><td><u>Issued Capital</u></td><td></td></tr><tr><td>50,000 equity shares of ₹ 100 each</td><td>50,00,000</td></tr><tr><td><u>Subscribed and fully paid</u></td><td></td></tr><tr><td>49,500 shares of ₹ 100 each</td><td>49,50,000</td></tr><tr><td>Add: Share forfeiture Account</td><td>40,000</td></tr><tr><td></td><td>49,90,000</td></tr></tbody></table> | Particulars | Note No.    | Amount ₹<br>Current year | Amount ₹<br>Previous year | <b>EQUITY &amp; LIABILITIES</b>                             |               |                                                                |       | I Shareholder's funds :         |               |              |               | a) Share Capital | 1     | 49,90,000 |  | Particulars | ₹            | (1) <u>Share Capital</u> |              | <u>Authorised Capital :</u>     |  | 1,00,000 equity shares of ₹ 100 each | 1,00,00,000 | <u>Issued Capital</u> |  | 50,000 equity shares of ₹ 100 each | 50,00,000 | <u>Subscribed and fully paid</u> |  | 49,500 shares of ₹ 100 each | 49,50,000 | Add: Share forfeiture Account | 40,000 |  | 49,90,000 | <div>1</div> <div>1</div> <div><math>\frac{1}{2}</math></div> <div><math>\frac{1}{2}</math></div> <div>=3 Marks</div> |
| Particulars                                                 | Note No.                                                       | Amount ₹<br>Current year | Amount ₹<br>Previous year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| <b>EQUITY &amp; LIABILITIES</b>                             |                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| I Shareholder's funds :                                     |                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| a) Share Capital                                            | 1                                                              | 49,90,000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| Particulars                                                 | ₹                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| (1) <u>Share Capital</u>                                    |                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| <u>Authorised Capital :</u>                                 |                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| 1,00,000 equity shares of ₹ 100 each                        | 1,00,00,000                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| <u>Issued Capital</u>                                       |                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| 50,000 equity shares of ₹ 100 each                          | 50,00,000                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| <u>Subscribed and fully paid</u>                            |                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| 49,500 shares of ₹ 100 each                                 | 49,50,000                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| Add: Share forfeiture Account                               | 40,000                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
|                                                             | 49,90,000                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| 10                                                          | 10                                                             | 10                       | <div>Q. 'Sangam Woollens Ltd. ....to the society.</div> <div>Ans.</div> <div>a)</div> <div>Books of Sangam Woollens Ltd.<br/>Journal</div> <table><thead><tr><th>Date</th><th>Particulars</th><th>LF</th><th>Dr (₹)</th><th>Cr (₹)</th></tr></thead><tbody><tr><td>i.</td><td>Machinery A/c<br/>To Vendors A/c<br/>(For purchase of machinery)</td><td>Dr.</td><td>5,00,000</td><td>5,00,000</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date        | Particulars | LF                       | Dr (₹)                    | Cr (₹)                                                      | i.            | Machinery A/c<br>To Vendors A/c<br>(For purchase of machinery) | Dr.   | 5,00,000                        | 5,00,000      | <div>1</div> |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| Date                                                        | Particulars                                                    | LF                       | Dr (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cr (₹)      |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |
| i.                                                          | Machinery A/c<br>To Vendors A/c<br>(For purchase of machinery) | Dr.                      | 5,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00,000    |             |                          |                           |                                                             |               |                                                                |       |                                 |               |              |               |                  |       |           |  |             |              |                          |              |                                 |  |                                      |             |                       |  |                                    |           |                                  |  |                             |           |                               |        |  |           |                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                        | <div><div>ii.</div><div>Vendors A/c<br/>To Equity Share Capital A/c<br/>To 9% Debentures A/c<br/>(For issue of equity shares and debentures at par )<br/><br/>OR<br/>Vendors A/c<br/>To Equity Share Capital A/c<br/>(For issue of equity shares )<br/><br/>Vendors A/c<br/>To 9% Debentures A/c<br/>(For issue debentures at par )</div><div>Dr.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <div>5,00,000</div> <div>4,00,000<br/>1,00,000</div> | <div>1</div> <div>1</div> <div>=</div> <div>3 Marks</div> |  |             |            |             |            |                         |        |                |        |  |  |                     |        |  |  |                        |       |  |  |                        |        |  |        |  |        |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------|--------|----------------|--------|--|--|---------------------|--------|--|--|------------------------|-------|--|--|------------------------|--------|--|--------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>b)</div><div>Values which the company wants to communicate to the society: (Any one)</div><div><div>Fulfilling/ Discharging of social responsibility.</div><div>Generation of employment opportunities in rural areas</div></div><div>(OR any other suitable value.)</div></div> |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                      |                                                           |  |             |            |             |            |                         |        |                |        |  |  |                     |        |  |  |                        |       |  |  |                        |        |  |        |  |        |                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 11                     | <div><div>Q. Sunny, Honey.....his executors.</div><div>Ans.</div><div>Dr.</div><div><table><tr><th colspan="2">Honey's Capital A/c</th><th colspan="2">Cr.</th></tr><tr><th>Particulars</th><th>Amount (₹)</th><th>Particulars</th><th>Amount (₹)</th></tr><tr><td>To Honey's Executor A/c</td><td>81,350</td><td>By Balance b/d</td><td>30,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>By P/L Suspense A/c</td><td>40,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>By Interest on Capital</td><td>1,350</td></tr><tr><td></td><td></td><td>By General Reserve A/c</td><td>10,000</td></tr><tr><td></td><td>81,350</td><td></td><td>81,350</td></tr></table></div><div><div>Working notes:</div><div><div>i.</div><div>Calculation of Interest on Capital: 30,000 x 6/100 x 9/12 = ₹ 1,350</div></div><div><div>ii.</div><div>Calculation of Honey's Share of Profit :<br/>= 6,00,000 x 20/100 x 1/3 = ₹ 40,000</div></div><div><div>iii.</div><div>Share in General Reserve= 30,000 x 1/3 = ₹ 10,000</div></div></div></div> | Honey's Capital A/c |                                                      | Cr.                                                       |  | Particulars | Amount (₹) | Particulars | Amount (₹) | To Honey's Executor A/c | 81,350 | By Balance b/d | 30,000 |  |  | By P/L Suspense A/c | 40,000 |  |  | By Interest on Capital | 1,350 |  |  | By General Reserve A/c | 10,000 |  | 81,350 |  | 81,350 | <div><div>1/2</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>=</div><div>4 Marks</div></div> |
| Honey's Capital A/c                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Cr.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                      |                                                           |  |             |            |             |            |                         |        |                |        |  |  |                     |        |  |  |                        |       |  |  |                        |        |  |        |  |        |                                                                                             |
| Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amount (₹) | Particulars            | Amount (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                      |                                                           |  |             |            |             |            |                         |        |                |        |  |  |                     |        |  |  |                        |       |  |  |                        |        |  |        |  |        |                                                                                             |
| To Honey's Executor A/c                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81,350     | By Balance b/d         | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                      |                                                           |  |             |            |             |            |                         |        |                |        |  |  |                     |        |  |  |                        |       |  |  |                        |        |  |        |  |        |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | By P/L Suspense A/c    | 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                      |                                                           |  |             |            |             |            |                         |        |                |        |  |  |                     |        |  |  |                        |       |  |  |                        |        |  |        |  |        |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | By Interest on Capital | 1,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                      |                                                           |  |             |            |             |            |                         |        |                |        |  |  |                     |        |  |  |                        |       |  |  |                        |        |  |        |  |        |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | By General Reserve A/c | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                      |                                                           |  |             |            |             |            |                         |        |                |        |  |  |                     |        |  |  |                        |       |  |  |                        |        |  |        |  |        |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81,350     |                        | 81,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                      |                                                           |  |             |            |             |            |                         |        |                |        |  |  |                     |        |  |  |                        |       |  |  |                        |        |  |        |  |        |                                                                                             |

| 12                            | 12                                                                        | 12                                                   | <p><b>Q. Kumar, Gupta and Kavita.....Journal entry.</b></p> <p><b>Ans.</b></p> <p>i. <u>Calculation of Goodwill of the firm</u></p> <p>Average Profit = ₹ ( 4,00,000 + 4,80,000 + 7,33,000 – 33,000 + 2,20,000 ) / 5</p> <p>= ₹ 3,60,000</p> <p>Goodwill of the firm = 2 x 3,60,000 = ₹ 7,20,000</p> <p style="text-align: center;"><b>Journal</b></p> <table><tr><th>Date</th><th>Particulars</th><th>LF</th><th>Dr (₹)</th><th>Cr (₹)</th></tr><tr><td></td><td>Gupta's Capital A/c Dr.</td><td></td><td>1,20,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>To Kumar's Capital A/c</td><td></td><td></td><td>60,000</td></tr><tr><td></td><td>To Kavita's Capital A/c</td><td></td><td></td><td>60,000</td></tr><tr><td></td><td>(Adjustment of goodwill among partners on change in profit sharing ratio)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Old ratio = 1:1:1</p> <p>New Ratio = 1:2:1</p> <p>Kumar's Sacrifice = 1/3 – 1/4 = 1/12</p> <p>Gupta's Gain = 1/3 – 2/4 = 2/12</p> <p>Kavita's Sacrifice = 1/3-1/4 = 1/12</p> <p>Kumar's sacrifice = 7,20,000 x 1/12 = ₹ 60,000</p> <p>Gupta's Gain = 7,20,000 x 2/12 = ₹ 1,20,000</p> <p>Kavita's Sacrifice = 7,20,000 x 1/12 = ₹ 60,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date                   | Particulars   | LF            | Dr (₹)        | Cr (₹)   |        | Gupta's Capital A/c Dr.    |       | 1,20,000   |        |                     | To Kumar's Capital A/c |                        |        | 60,000           |       | To Kavita's Capital A/c |  |                  | 60,000 |                  | (Adjustment of goodwill among partners on change in profit sharing ratio) |                            |  |               | 2     | 2       | =     | 4 Marks       |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|----------------------------|-------|------------|--------|---------------------|------------------------|------------------------|--------|------------------|-------|-------------------------|--|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------|-------|---------------|--------|-----------|--------|--|--------|--------------------|--------|-------------------------------|-----|--|--------|----------------|-----|--------------------------------------|-------|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------|--|--|-------|-------|--|--|---------|-------|--|--|--|-------|--|-----------------|--|-----------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------|------------------------|-------|-------|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|---|--|--|
| Date                          | Particulars                                                               | LF                                                   | Dr (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cr (₹)                 |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               | Gupta's Capital A/c Dr.                                                   |                                                      | 1,20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               | To Kumar's Capital A/c                                                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,000                 |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               | To Kavita's Capital A/c                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,000                 |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               | (Adjustment of goodwill among partners on change in profit sharing ratio) |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| 15                            | 14                                                                        | 13                                                   | <p><b>Q. Bora, Singh and Ibrahim.....amounts.</b></p> <p><b>Ans.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Realisation A/c</b></p> <table><tr><th>Particulars</th><th>Amt (₹)</th><th>Particulars</th><th>Amt (₹)</th></tr><tr><td>To Stock</td><td>10,000</td><td>By Provision for bad debts</td><td>5,000</td></tr><tr><td>To Debtors</td><td>25,000</td><td>By Sundry Creditors</td><td>16,600</td></tr><tr><td>To Plant and Machinery</td><td>40,000</td><td>By Bills Payable</td><td>3,400</td></tr><tr><td>To Bank:</td><td></td><td>By Mortgage Loan</td><td>15,000</td></tr><tr><td>    Sundry creditors</td><td>16,000</td><td>By Bank – assets realised:</td><td></td></tr><tr><td>    Bills Payable</td><td>3,400</td><td>    Stock –</td><td>6,700</td></tr><tr><td>    Mortgage Loan</td><td>15,000</td><td>    Debtors –</td><td>12,500</td></tr><tr><td></td><td>34,400</td><td>    Plant &amp; Machinery-</td><td>36,000</td></tr><tr><td>To Bank (Outstanding repairs)</td><td>400</td><td></td><td>55,200</td></tr><tr><td>To Bank (Exp.)</td><td>620</td><td>By Bank – unrecorded assets realised</td><td>6,220</td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>By Loss Transferred to Partners' Capital A/c:</b></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>    Bora</td><td>5,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>    Singh</td><td>3,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>    Ibrahim</td><td>1,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>9,000</td></tr><tr><td></td><td><b>1,10,420</b></td><td></td><td><b>1,10,420</b></td></tr></table> <p style="text-align: center;"><b>Partner's Capital A/c</b></p> <table><tr><th>Particulars</th><th>Bora (₹)</th><th>Singh (₹)</th><th>Ibrahim (₹)</th><th>Particulars</th><th>Bora (₹)</th><th>Singh (₹)</th><th>Ibrahim (₹)</th></tr><tr><td>To Revaluation A/c</td><td>5,000</td><td>3,000</td><td>1,000</td><td>By Balance b/d</td><td>22,000</td><td>18,000</td><td>10,000</td></tr><tr><td>To Bank A/c</td><td>19,500</td><td>16,500</td><td>9,500</td><td>By General Reserve A/c</td><td>2,500</td><td>1,500</td><td>500</td></tr><tr><td></td><td><b>24,500</b></td><td><b>19,500</b></td><td><b>10,500</b></td><td></td><td><b>24,500</b></td><td><b>19,500</b></td><td><b>10,500</b></td></tr></table> | Particulars            | Amt (₹)       | Particulars   | Amt (₹)       | To Stock | 10,000 | By Provision for bad debts | 5,000 | To Debtors | 25,000 | By Sundry Creditors | 16,600                 | To Plant and Machinery | 40,000 | By Bills Payable | 3,400 | To Bank:                |  | By Mortgage Loan | 15,000 | Sundry creditors | 16,000                                                                    | By Bank – assets realised: |  | Bills Payable | 3,400 | Stock – | 6,700 | Mortgage Loan | 15,000 | Debtors – | 12,500 |  | 34,400 | Plant & Machinery- | 36,000 | To Bank (Outstanding repairs) | 400 |  | 55,200 | To Bank (Exp.) | 620 | By Bank – unrecorded assets realised | 6,220 |  |  | <b>By Loss Transferred to Partners' Capital A/c:</b> |  |  |  | Bora | 5,000 |  |  | Singh | 3,000 |  |  | Ibrahim | 1,000 |  |  |  | 9,000 |  | <b>1,10,420</b> |  | <b>1,10,420</b> | Particulars | Bora (₹) | Singh (₹) | Ibrahim (₹) | Particulars | Bora (₹) | Singh (₹) | Ibrahim (₹) | To Revaluation A/c | 5,000 | 3,000 | 1,000 | By Balance b/d | 22,000 | 18,000 | 10,000 | To Bank A/c | 19,500 | 16,500 | 9,500 | By General Reserve A/c | 2,500 | 1,500 | 500 |  | <b>24,500</b> | <b>19,500</b> | <b>10,500</b> |  | <b>24,500</b> | <b>19,500</b> | <b>10,500</b> | 1 | 2 |  |  |
| Particulars                   | Amt (₹)                                                                   | Particulars                                          | Amt (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| To Stock                      | 10,000                                                                    | By Provision for bad debts                           | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| To Debtors                    | 25,000                                                                    | By Sundry Creditors                                  | 16,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| To Plant and Machinery        | 40,000                                                                    | By Bills Payable                                     | 3,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| To Bank:                      |                                                                           | By Mortgage Loan                                     | 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| Sundry creditors              | 16,000                                                                    | By Bank – assets realised:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| Bills Payable                 | 3,400                                                                     | Stock –                                              | 6,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| Mortgage Loan                 | 15,000                                                                    | Debtors –                                            | 12,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               | 34,400                                                                    | Plant & Machinery-                                   | 36,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| To Bank (Outstanding repairs) | 400                                                                       |                                                      | 55,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| To Bank (Exp.)                | 620                                                                       | By Bank – unrecorded assets realised                 | 6,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               |                                                                           | <b>By Loss Transferred to Partners' Capital A/c:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               |                                                                           | Bora                                                 | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               |                                                                           | Singh                                                | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               |                                                                           | Ibrahim                                              | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               |                                                                           |                                                      | 9,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               | <b>1,10,420</b>                                                           |                                                      | <b>1,10,420</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |               |               |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| Particulars                   | Bora (₹)                                                                  | Singh (₹)                                            | Ibrahim (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Particulars            | Bora (₹)      | Singh (₹)     | Ibrahim (₹)   |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| To Revaluation A/c            | 5,000                                                                     | 3,000                                                | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | By Balance b/d         | 22,000        | 18,000        | 10,000        |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
| To Bank A/c                   | 19,500                                                                    | 16,500                                               | 9,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | By General Reserve A/c | 2,500         | 1,500         | 500           |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |
|                               | <b>24,500</b>                                                             | <b>19,500</b>                                        | <b>10,500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | <b>24,500</b> | <b>19,500</b> | <b>10,500</b> |          |        |                            |       |            |        |                     |                        |                        |        |                  |       |                         |  |                  |        |                  |                                                                           |                            |  |               |       |         |       |               |        |           |        |  |        |                    |        |                               |     |  |        |                |     |                                      |       |  |  |                                                      |  |  |  |      |       |  |  |       |       |  |  |         |       |  |  |  |       |  |                 |  |                 |             |          |           |             |             |          |           |             |                    |       |       |       |                |        |        |        |             |        |        |       |                        |       |       |     |  |               |               |               |  |               |               |               |   |   |  |  |

|                                               |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--|-----|-------------|------------|-------------|------------|----------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--|--|-----------------------|--------|--|--|------------------------|--------|--|--|--------------------------|-------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--------------------------|
|                                               |               |                                         | <table><tr><td>Dr.</td><td colspan="2">Bank A/c</td><td>Cr.</td></tr><tr><td>Particulars</td><td>Amount (₹)</td><td>Particulars</td><td>Amount (₹)</td></tr><tr><td>To Balance b/d</td><td>19,500</td><td>By Realisation (liabilities)</td><td>34,400</td></tr><tr><td>To realisation A/c (assets realized)</td><td>55,200</td><td>By Realisation (unrecorded liabilities)</td><td>400</td></tr><tr><td><u>To Realisation A/c (unrecorded assets)</u></td><td><u>6,220</u></td><td><u>By Realisation A/c (Expenses)</u></td><td><u>620</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td>By Bora's Capital A/c</td><td>19,500</td></tr><tr><td></td><td></td><td>By Singh's Capital A/c</td><td>16,500</td></tr><tr><td></td><td></td><td>By Ibrahim's Capital A/c</td><td>9,500</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td><u>45,500</u></td></tr><tr><td></td><td><u>80,920</u></td><td></td><td><u>80,920</u></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dr.                         | Bank A/c |  | Cr. | Particulars | Amount (₹) | Particulars | Amount (₹) | To Balance b/d | 19,500 | By Realisation (liabilities) | 34,400 | To realisation A/c (assets realized) | 55,200 | By Realisation (unrecorded liabilities) | 400 | <u>To Realisation A/c (unrecorded assets)</u> | <u>6,220</u> | <u>By Realisation A/c (Expenses)</u> | <u>620</u> |  |  | By Bora's Capital A/c | 19,500 |  |  | By Singh's Capital A/c | 16,500 |  |  | By Ibrahim's Capital A/c | 9,500 |  |  |  | <u>45,500</u> |  | <u>80,920</u> |  | <u>80,920</u> | 3<br>1<br>1 =<br>6 Marks |
| Dr.                                           | Bank A/c      |                                         | Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
| Particulars                                   | Amount (₹)    | Particulars                             | Amount (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
| To Balance b/d                                | 19,500        | By Realisation (liabilities)            | 34,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
| To realisation A/c (assets realized)          | 55,200        | By Realisation (unrecorded liabilities) | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
| <u>To Realisation A/c (unrecorded assets)</u> | <u>6,220</u>  | <u>By Realisation A/c (Expenses)</u>    | <u>620</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
|                                               |               | By Bora's Capital A/c                   | 19,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
|                                               |               | By Singh's Capital A/c                  | 16,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
|                                               |               | By Ibrahim's Capital A/c                | 9,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
|                                               |               |                                         | <u>45,500</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
|                                               | <u>80,920</u> |                                         | <u>80,920</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
| 13                                            | 15            | 14                                      | <p><b>Q. On 1-4-2010 Sahil.....admission.</b></p> <p><b>Ans.</b></p> <p><b>1. Calculation of New Profit Sharing ratio of Sahil, Charu and Tanu</b></p> <p>Sahil's old share = <math>4/7</math><br/>Sahil surrender = <math>1/5 \times 1/2 = 1/10</math> in favour of Tanu<br/>Sahil's new share = <math>4/7 - 1/10 = 33/70</math> (1)<br/>Charu's old share = <math>3/7</math><br/>Charu surrenders = <math>1/5 \times 1/2 = 1/10</math> in favour of Tanu<br/>Charu's new share = <math>3/7 - 1/10 = 23/70</math> (1)</p> <p>Tanu's share = <math>1/10 + 1/10 = 2/10</math></p> <p>New Profit Sharing ratio among Sahil, Charu and Tanu = <math>33/70: 23/70: 2/10</math> or <math>14/70</math><br/>= <b>33:23:14</b> (1)</p> <p><b>2. Calculation of New Profit Sharing Ratio of Sahil, Charu, Tanu and Puneet</b></p> <p>Sahil's old share = <math>33/70</math><br/>Sahil surrenders in favour of Puneet = <math>1/7 \times 7/10 = 7/70</math><br/>So, Sahil's new share = <math>33/70 - 7/70 = 26/70</math> (1/2)</p> <p>Charu's old share = <math>23/70</math><br/>Charu surrenders in favour of Puneet = <math>1/7 \times 3/10 = 3/70</math><br/>Charu's new share = <math>23/70 - 3/70 = 20/70</math> (1/2)</p> <p>Tanu's new share = <math>14/70</math> (1/2)<br/>Puneet's new share = <math>1/7</math> or <math>10/70</math> (1/2)</p> <p>New Profit Sharing ratio among partners = <math>26/70:20/70:14/70:10/70</math><br/>= <b>26:20;14:10</b><br/>= <b>13:10:7:5</b> (1)</p> | 3<br>1<br>3<br>=<br>6 Marks |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |
| 14                                            | 13            | 15                                      | <p><b>Bharat Ltd. ....9% Debentures A/c.</b></p> <p><b>Ans.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |  |     |             |            |             |            |                |        |                              |        |                                      |        |                                         |     |                                               |              |                                      |            |  |  |                       |        |  |  |                        |        |  |  |                          |       |  |  |  |               |  |               |  |               |                          |

| Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |    |                                                    | Cr.           |                                                                                |    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| 9% Debentures A/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |    |                                                    |               |                                                                                |    |                                 |
| Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Particulars                                   | LF | Amount (₹)                                         | Date          | Particulars                                                                    | LF | Amount (₹)                      |
| 2009<br>Mar 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | To Balance c/d                                |    | 6,00,000                                           | 2008<br>Apr 1 | By Debentures<br>app & all A/c<br>By Discount on<br>issue of<br>debentures A/c |    | 5,40,000<br><br>60,000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |    | <u>6,00,000</u>                                    |               |                                                                                |    | <u>6,00,000</u>                 |
| 2010<br>Mar 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | To Balance c/d                                |    | <u>6,00,000</u>                                    | 2009<br>Apr 1 | By Balance b/d                                                                 |    | <u>6,00,000</u>                 |
| 2011<br>Mar 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | To Debenture<br>holders A/c<br>To Balance c/d |    | 1,00,000<br><br><u>5,00,000</u><br><u>6,00,000</u> | 2010<br>Apr 1 | By Balance b/d                                                                 |    | 6,00,000<br><br><u>6,00,000</u> |
| 2012<br>Mar 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | To Debenture<br>Holder A/c<br>To Balance c/d  |    | 1,00,000<br><br><u>4,00,000</u><br><u>5,00,000</u> | 2011<br>Apr 1 | By Balance b/d                                                                 |    | 5,00,000<br><br><u>5,00,000</u> |
| 2013<br>Mar 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | To Debenture<br>Holder A/c<br>To Balance c/d  |    | 2,00,000<br><br><u>2,00,000</u><br><u>4,00,000</u> | 2012<br>Apr 1 | By Balance b/d                                                                 |    | 4,00,000<br><br><u>4,00,000</u> |
| 2014<br>Mar 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | To Debenture<br>holders A/c                   |    | 2,00,000<br><br><u>2,00,000</u>                    | 2013<br>Apr 1 | By Balance b/d                                                                 |    | 2,00,000<br><br><u>2,00,000</u> |
| <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>First two years account is necessary to be correctly prepared and four marks have to be awarded. However, if an examinee has not prepared last four years account, stating/ mentioning that amount of debentures to be redeemed is not given in the question then additional credit of two marks is to be given.</li><li>If an examinee has prepared the last four years account correctly mentioning any amount then also full credit of two marks is to be given.</li></ul> |                                               |    |                                                    |               |                                                                                |    |                                 |

2

2

2

=

6 Marks

| -    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 | <p><b>Q. Wellness Ltd.....transactions.</b></p> <p><b>Ans.</b></p> <p align="center"><b>Books of Wellness Ltd.</b></p> <p align="center"><b>Journal</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th><th>Particulars</th><th>LF</th><th>Dr. Amt<br/>(₹)</th><th>Cr. Amt<br/>(₹)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i.</td><td>Bank A/c Dr.<br/>To Equity Share Application &amp; Allotment A/c<br/>(For application money received on 39,000 shares)</td><td></td><td>1,56,000</td><td>1,56,000</td></tr> <tr> <td>ii.</td><td>Equity Share Application &amp; Allotment A/c Dr.<br/>Discount on issue of shares A/c Dr.<br/>To Equity Share Capital A/c<br/>(For equity share allotment made)</td><td></td><td>1,56,000<br/>39,000</td><td>1,95,000</td></tr> <tr> <td>iii.</td><td>Equity Share first call A/c Dr.<br/>To Equity Share Capital A/c<br/>(For first call money due)</td><td></td><td>1,17,000</td><td>1,17,000</td></tr> <tr> <td>iv.</td><td>Bank A/c Dr.<br/>To Equity share first call a/c<br/>(For first call money received except on 3000 shares)<br/><br/><b>OR</b><br/>Bank A/c Dr.<br/>Calls in arrears A/c Dr.<br/>To Equity Share First Call A/c<br/>(For first call money received except on 3000 shares and the advance adjusted)</td><td></td><td>1,08,000<br/><br/>1,08,000<br/>9,000</td><td>1,08,000<br/><br/>1,17,000</td></tr> <tr> <td>v.</td><td>Equity Share second and final call A/c Dr.<br/>To Equity Share Capital A/c<br/>(Being second and final call money due on 39000 shares)</td><td></td><td>78,000</td><td>78,000</td></tr> <tr> <td>vi.</td><td>Bank A/c Dr.<br/>To Equity share second and final call a/c<br/>(For second and final call money received except on 9000 shares)<br/><br/><b>OR</b><br/>Bank A/c Dr.<br/>Calls in arrears A/c Dr.<br/>To Equity share second and final call A/c<br/>(For second and final call money received except on 9000 shares)</td><td></td><td>60,000<br/><br/>60,000<br/>18,000</td><td>60,000<br/><br/>78,000</td></tr> <tr> <td>vii.</td><td>Equity Share Capital A/c Dr.<br/>To Share Forfeiture A/c<br/>To Equity share first call A/c<br/>To Equity Share second and final call A/c<br/>To discount on issue of shares A/c<br/>(For 3000 shares forfeited)<br/><br/><b>OR</b></td><td></td><td>30,000</td><td>12,000<br/>9,000<br/>6,000<br/>3,000</td></tr> </tbody> </table> | Date                              | Particulars | LF | Dr. Amt<br>(₹) | Cr. Amt<br>(₹) | i. | Bank A/c Dr.<br>To Equity Share Application & Allotment A/c<br>(For application money received on 39,000 shares) |  | 1,56,000 | 1,56,000 | ii. | Equity Share Application & Allotment A/c Dr.<br>Discount on issue of shares A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>(For equity share allotment made) |  | 1,56,000<br>39,000 | 1,95,000 | iii. | Equity Share first call A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>(For first call money due) |  | 1,17,000 | 1,17,000 | iv. | Bank A/c Dr.<br>To Equity share first call a/c<br>(For first call money received except on 3000 shares)<br><br><b>OR</b><br>Bank A/c Dr.<br>Calls in arrears A/c Dr.<br>To Equity Share First Call A/c<br>(For first call money received except on 3000 shares and the advance adjusted) |  | 1,08,000<br><br>1,08,000<br>9,000 | 1,08,000<br><br>1,17,000 | v. | Equity Share second and final call A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>(Being second and final call money due on 39000 shares) |  | 78,000 | 78,000 | vi. | Bank A/c Dr.<br>To Equity share second and final call a/c<br>(For second and final call money received except on 9000 shares)<br><br><b>OR</b><br>Bank A/c Dr.<br>Calls in arrears A/c Dr.<br>To Equity share second and final call A/c<br>(For second and final call money received except on 9000 shares) |  | 60,000<br><br>60,000<br>18,000 | 60,000<br><br>78,000 | vii. | Equity Share Capital A/c Dr.<br>To Share Forfeiture A/c<br>To Equity share first call A/c<br>To Equity Share second and final call A/c<br>To discount on issue of shares A/c<br>(For 3000 shares forfeited)<br><br><b>OR</b> |  | 30,000 | 12,000<br>9,000<br>6,000<br>3,000 | <p align="center"><math>\frac{1}{2}</math></p> <p align="center"><b>1</b></p> <p align="center"><math>\frac{1}{2}</math></p> <p align="center"><b>1</b></p> <p align="center"><b>1</b></p> <p align="center"><b>1</b></p> <p align="center"><b>1</b></p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----|----------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LF | Dr. Amt<br>(₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cr. Amt<br>(₹)                    |             |    |                |                |    |                                                                                                                  |  |          |          |     |                                                                                                                                                         |  |                    |          |      |                                                                                              |  |          |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                          |    |                                                                                                                                      |  |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i.   | Bank A/c Dr.<br>To Equity Share Application & Allotment A/c<br>(For application money received on 39,000 shares)                                                                                                                                                                                            |    | 1,56,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,56,000                          |             |    |                |                |    |                                                                                                                  |  |          |          |     |                                                                                                                                                         |  |                    |          |      |                                                                                              |  |          |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                          |    |                                                                                                                                      |  |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ii.  | Equity Share Application & Allotment A/c Dr.<br>Discount on issue of shares A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>(For equity share allotment made)                                                                                                                                                     |    | 1,56,000<br>39,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,95,000                          |             |    |                |                |    |                                                                                                                  |  |          |          |     |                                                                                                                                                         |  |                    |          |      |                                                                                              |  |          |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                          |    |                                                                                                                                      |  |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iii. | Equity Share first call A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>(For first call money due)                                                                                                                                                                                                                |    | 1,17,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,17,000                          |             |    |                |                |    |                                                                                                                  |  |          |          |     |                                                                                                                                                         |  |                    |          |      |                                                                                              |  |          |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                          |    |                                                                                                                                      |  |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iv.  | Bank A/c Dr.<br>To Equity share first call a/c<br>(For first call money received except on 3000 shares)<br><br><b>OR</b><br>Bank A/c Dr.<br>Calls in arrears A/c Dr.<br>To Equity Share First Call A/c<br>(For first call money received except on 3000 shares and the advance adjusted)                    |    | 1,08,000<br><br>1,08,000<br>9,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,08,000<br><br>1,17,000          |             |    |                |                |    |                                                                                                                  |  |          |          |     |                                                                                                                                                         |  |                    |          |      |                                                                                              |  |          |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                          |    |                                                                                                                                      |  |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v.   | Equity Share second and final call A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>(Being second and final call money due on 39000 shares)                                                                                                                                                                        |    | 78,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78,000                            |             |    |                |                |    |                                                                                                                  |  |          |          |     |                                                                                                                                                         |  |                    |          |      |                                                                                              |  |          |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                          |    |                                                                                                                                      |  |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vi.  | Bank A/c Dr.<br>To Equity share second and final call a/c<br>(For second and final call money received except on 9000 shares)<br><br><b>OR</b><br>Bank A/c Dr.<br>Calls in arrears A/c Dr.<br>To Equity share second and final call A/c<br>(For second and final call money received except on 9000 shares) |    | 60,000<br><br>60,000<br>18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,000<br><br>78,000              |             |    |                |                |    |                                                                                                                  |  |          |          |     |                                                                                                                                                         |  |                    |          |      |                                                                                              |  |          |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                          |    |                                                                                                                                      |  |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vii. | Equity Share Capital A/c Dr.<br>To Share Forfeiture A/c<br>To Equity share first call A/c<br>To Equity Share second and final call A/c<br>To discount on issue of shares A/c<br>(For 3000 shares forfeited)<br><br><b>OR</b>                                                                                |    | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,000<br>9,000<br>6,000<br>3,000 |             |    |                |                |    |                                                                                                                  |  |          |          |     |                                                                                                                                                         |  |                    |          |      |                                                                                              |  |          |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                          |    |                                                                                                                                      |  |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |   |          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |                            |                           |     |                            |  |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----|----------------------------|--|
|   |   |          |                                                                             | Equity Share Capital A/c<br>To Share Forfeiture A/c<br>To Calls in arrears A/c<br>To discount on issue of shares A/c<br>(For 3000 shares forfeited)                                                | Dr.               |                         | 30,000                     | 12,000<br>15,000<br>3,000 |     | 1<br><br>1<br>=<br>8 Marks |  |
|   |   |          | viii.                                                                       | Bank A/c<br>Discount on issue of shares A/c<br>Share forfeiture A/c<br>To Equity Share Capital A/c<br>(For shares reissued for ₹8 per share fully paid up)                                         | Dr.<br>Dr.<br>Dr. |                         | 24,000<br>3,000<br>3,000   | 30,000                    |     |                            |  |
|   |   |          | ix.                                                                         | Share forfeiture A/c<br>To capital reserve A/c<br>(For forfeiture balance transferred to capital reserve)                                                                                          | Dr.               |                         | 9,000                      | 9,000                     |     |                            |  |
| - | - | 16<br>OR | Q. Shubham Ltd.....Company.<br>Ans.<br><br>Books of Shubham Ltd.<br>Journal |                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |                            |                           |     |                            |  |
|   |   |          | Date                                                                        | Particulars                                                                                                                                                                                        | LF                | Dr. Amt<br>(₹)          | Cr. Amt<br>(₹)             |                           |     |                            |  |
|   |   |          | i.                                                                          | Bank A/c<br>To Equity Share Application and Allotment A/c<br>(For application money received on 18,000 shares)                                                                                     | Dr.               | 1,08,000                | 1,08,000                   |                           | ½   |                            |  |
|   |   |          | ii.                                                                         | Equity Share Application and Allotment A/c<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Calls in Advance A/c<br>To Securities premium/ Securities premium reserve A/c<br>(For equity share allotment made) | Dr.               | 1,08,000                | 36,000<br>36,000<br>36,000 |                           | 1 ½ |                            |  |
|   |   |          | iii.                                                                        | Equity Share first call A/c<br>To Equity Share Capital A/c<br>(For first call money due on 12000 shares)                                                                                           | Dr.               | 48,000                  | 48,000                     |                           | 1   |                            |  |
|   |   |          | iv.                                                                         | Bank A/c<br>Calls in advance A/c<br>To Equity share first call a/c<br>(For first call money received except on 120 shares)                                                                         | Dr.<br>Dr.        | 11,880<br>36,000        | 47,880                     |                           | 1   |                            |  |
|   |   |          | OR                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |                            |                           |     |                            |  |
|   |   |          |                                                                             | Bank A/c<br>Calls in arrears A/c<br>Calls in advance A/c<br>To Equity share first call A/c<br>(For first call money received except on 120 shares)                                                 | Dr.<br>Dr.<br>Dr. | 11,880<br>120<br>36,000 | 48,000                     |                           |     |                            |  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | <table><tr><td>v.</td><td>Equity share second and final call A/c<br/>To Equity share capital A/c<br/>( For second and final call money due on 12000 shares)</td><td>Dr.</td><td></td><td>36,000</td><td>36,000</td><td rowspan="4"><math>\frac{1}{2}</math><br/><br/><b>1</b><br/><br/><b>2</b><br/><br/><math>\frac{1}{2}</math><br/>=<br/><b>8 Marks</b></td></tr><tr><td>vi.</td><td>Bank A/c<br/>To Equity share second and final call A/c<br/>(For second and final call money received except on 120 shares)<br/><br/><b>OR</b><br/>Bank A/c<br/>Calls in arrears A/c<br/>To Equity share second and final call A/c<br/>(For second and final call money received except on 120 shares)</td><td>Dr.<br/><br/>Dr.</td><td></td><td>35,640<br/><br/>360</td><td>35,640<br/><br/>36,000</td></tr><tr><td>vii.</td><td>Equity Share Capital A/c<br/>To Share Forfeiture A/c<br/>To Equity Share first Call A/c<br/>To Equity share second and final call A/c<br/>(For 120 shares forfeited)<br/><br/><b>OR</b><br/>Equity Share Capital A/c<br/>To Share Forfeiture A/c<br/>To Calls in arrears A/c<br/>(For 120 shares forfeited)</td><td>Dr.</td><td></td><td>1,200</td><td>720<br/>120<br/>360<br/><br/>1,200<br/>720<br/>480</td></tr><tr><td>viii.</td><td>Bank A/c<br/>Share forfeiture A/c<br/>To Share Capital A/c<br/>(For shares reissued for ₹4 per share fully paid up)</td><td>Dr.<br/>Dr.</td><td></td><td>480<br/>720</td><td>1,200</td></tr></table> | v.                | Equity share second and final call A/c<br>To Equity share capital A/c<br>( For second and final call money due on 12000 shares) | Dr.                                                                                       |    | 36,000 | 36,000 | $\frac{1}{2}$<br><br><b>1</b><br><br><b>2</b><br><br>$\frac{1}{2}$<br>=<br><b>8 Marks</b> | vi.         | Bank A/c<br>To Equity share second and final call A/c<br>(For second and final call money received except on 120 shares)<br><br><b>OR</b><br>Bank A/c<br>Calls in arrears A/c<br>To Equity share second and final call A/c<br>(For second and final call money received except on 120 shares) | Dr.<br><br>Dr. |         | 35,640<br><br>360                              | 35,640<br><br>36,000 | vii.                           | Equity Share Capital A/c<br>To Share Forfeiture A/c<br>To Equity Share first Call A/c<br>To Equity share second and final call A/c<br>(For 120 shares forfeited)<br><br><b>OR</b><br>Equity Share Capital A/c<br>To Share Forfeiture A/c<br>To Calls in arrears A/c<br>(For 120 shares forfeited) | Dr.         |  | 1,200 | 720<br>120<br>360<br><br>1,200<br>720<br>480 | viii.      | Bank A/c<br>Share forfeiture A/c<br>To Share Capital A/c<br>(For shares reissued for ₹4 per share fully paid up) | Dr.<br>Dr. |  | 480<br>720 | 1,200        |  |              |                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|--------------|--|--------------|----------------------------|
| v.                                             | Equity share second and final call A/c<br>To Equity share capital A/c<br>( For second and final call money due on 12000 shares)                                                                                                                                                                   | Dr.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,000            | 36,000                                                                                                                          | $\frac{1}{2}$<br><br><b>1</b><br><br><b>2</b><br><br>$\frac{1}{2}$<br>=<br><b>8 Marks</b> |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |
| vi.                                            | Bank A/c<br>To Equity share second and final call A/c<br>(For second and final call money received except on 120 shares)<br><br><b>OR</b><br>Bank A/c<br>Calls in arrears A/c<br>To Equity share second and final call A/c<br>(For second and final call money received except on 120 shares)     | Dr.<br><br>Dr.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,640<br><br>360 | 35,640<br><br>36,000                                                                                                            |                                                                                           |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |
| vii.                                           | Equity Share Capital A/c<br>To Share Forfeiture A/c<br>To Equity Share first Call A/c<br>To Equity share second and final call A/c<br>(For 120 shares forfeited)<br><br><b>OR</b><br>Equity Share Capital A/c<br>To Share Forfeiture A/c<br>To Calls in arrears A/c<br>(For 120 shares forfeited) | Dr.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,200             | 720<br>120<br>360<br><br>1,200<br>720<br>480                                                                                    |                                                                                           |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |
| viii.                                          | Bank A/c<br>Share forfeiture A/c<br>To Share Capital A/c<br>(For shares reissued for ₹4 per share fully paid up)                                                                                                                                                                                  | Dr.<br>Dr.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 480<br>720        | 1,200                                                                                                                           |                                                                                           |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |
| 17                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                             | <b>Q. Charu and Harsha..... Capital Accounts.</b><br><b>Ans.</b><br><div><b>Revaluation A/c</b><table><tr><th colspan="2">Dr</th><th colspan="2">Cr</th></tr><tr><th>Particulars</th><th>Amt (₹)</th><th>Particulars</th><th>Amt (₹)</th></tr><tr><td>To Profit transferred to Partner's Capital A/c</td><td></td><td>By Provision for Bad Debts A/c</td><td>2,000</td></tr><tr><td>Charu 1,200</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Harsha 800</td><td>2,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><u>2,000</u></td><td></td><td><u>2,000</u></td></tr></table></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                           | Dr |        | Cr     |                                                                                           | Particulars | Amt (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Particulars    | Amt (₹) | To Profit transferred to Partner's Capital A/c |                      | By Provision for Bad Debts A/c | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Charu 1,200 |  |       |                                              | Harsha 800 | 2,000                                                                                                            |            |  |            | <u>2,000</u> |  | <u>2,000</u> | <b>1</b><br><b>2 Marks</b> |
| Dr                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cr                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |
| Particulars                                    | Amt (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Particulars                    | Amt (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |
| To Profit transferred to Partner's Capital A/c |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | By Provision for Bad Debts A/c | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |
| Charu 1,200                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |
| Harsha 800                                     | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |
|                                                | <u>2,000</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | <u>2,000</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |    |        |        |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |                                              |            |                                                                                                                  |            |  |            |              |  |              |                            |

|       |       |       |                                                |              |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
|       |       |       | Partner's Capital A/c                          |              |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | Particulars                                    | Charu<br>(₹) | Harsha<br>(₹)         | Vaishali<br>(₹) | Particulars                    | Charu<br>(₹) | Harsha<br>(₹) | Vaishali<br>(₹) | 1/2       |         |
|       |       |       | To Current A/cs                                | 5,400        | 3,600                 | —               | By Balance b/d                 | 30,000       | 20,000        | —               | 1/2       |         |
|       |       |       | To Balance c/d                                 | 36,000       | 24,000                | 20,000          | By General Reserve A/c         | 2,400        | 1,600         | —               | 1/2       |         |
|       |       |       |                                                |              |                       |                 | By Cash A/c                    | —            | —             | 20,000          | 1/2       |         |
|       |       |       |                                                |              |                       |                 | By premium for goodwill A/c    | 2,400        | 1,600         | —               | 1         |         |
|       |       |       |                                                |              |                       |                 | By Revaluation A/c             | 1,200        | 800           | —               | 1/2       |         |
|       |       |       |                                                |              |                       |                 | By Workmen Compensation Fund   | 1,800        | 1,200         | —               | 1         |         |
|       |       |       |                                                |              |                       |                 | By Investment fluctuation fund | 3,600        | 2,400         | —               | 1         |         |
|       |       |       |                                                | 41,400       | 27,600                | 20,000          |                                | 41,400       | 27,600        | 20,000          | 6 Marks   |         |
|       |       |       |                                                |              |                       |                 |                                |              |               |                 | = 8 Marks |         |
| 17 OR | 17 OR | 17 OR | Q. Amit, Balan and Chander..... retirement.    |              |                       |                 |                                |              |               |                 |           | 3 Marks |
|       |       |       | Ans.                                           |              |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | Revaluation A/c                                |              |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | Dr                                             |              |                       |                 |                                |              | Cr            |                 |           |         |
|       |       |       | Particulars                                    | Amt (₹)      | Particulars           | Amt (₹)         |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | To Machinery A/c                               | 4,800        | By Provident Fund A/c | 600             |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | To Patents A/c                                 |              | By Investments        | 5,800           |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | To Profit transferred to Partner's Capital A/c | 1,000        |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | Amit                                           | 300          |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | Balan                                          | 200          |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | Chander                                        | 100          |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       |                                                | 600          |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       |                                                | 6,400        |                       |                 |                                |              | 6,400         |                 |           |         |
|       |       |       | Partner's Capital A/c                          |              |                       |                 |                                |              |               |                 |           |         |
|       |       |       | Particulars                                    | Amit<br>(₹)  | Balan<br>(₹)          | Chander<br>(₹)  | Particulars                    | Amit<br>(₹)  | Balan<br>(₹)  | Chander<br>(₹)  |           |         |
|       |       |       | To Chander's Capital A/c                       | 2,700        | 1,800                 | —               | By Balance b/d                 | 40,000       | 36,500        | 20,000          |           |         |
|       |       |       | To Investment A/c                              | —            | —                     | 15,800          | By General Reserve A/c         | 4,500        | 3,000         | 1,500           | 1/2       |         |
|       |       |       | To Chander's Loan A/c                          | —            | —                     | 10,300          | By Amit's Capital A/c          | —            | —             | 2,700           | 1/2       |         |
|       |       |       | To Balan's Current A/c                         | —            | 5,900                 | —               | By Balan's Capital A/c         | —            | —             | 1,800           | 1/2       |         |
|       |       |       | To Balance c/d                                 | 48,000       | 32,000                | —               | By Revaluation A/c             | 300          | 200           | 100             | 1/2       |         |
|       |       |       |                                                |              |                       |                 | By Amit's Current A/c          | 5,900        | —             | —               |           |         |
|       |       |       |                                                | 50,700       | 39,700                | 26,100          |                                | 50,700       | 39,700        | 26,100          | = 8 Marks |         |



|                                                                    |             |                   | <p><b>b) Values: (Any two)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Participation of Employees in excess profits.</li><li>• Treating employees a part of the company.</li><li>• Ethical practices of company</li><li>• Hardwork and honesty of employees.</li><li>• Serving the organisation with dignity.</li></ul> <p><b>(Or any other suitable value)</b></p> <p><b>Note: For Hindi medium students only :</b><br/>If in place of values, an examinee has mentioned any profitability ratios, full credit needs to be given .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>2 x 1<br/>= 2</div> <p><b>2 Marks</b></p> <p><b>=</b></p> <p><b>4 Marks</b></p> |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------|--|--|----------------------|--------|--|---------------------------|--------|--|---------------------------|-------|--|-------------------------------------------------|----------|--|------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|--|-------------------------|---------|--|-----------------------------------------------------|--|--|----------------------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|--|------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------------|--|-------------------|-------|--|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------|----------|--|------------------------------|--------|--|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|--|--|--|-----------------|---------------------------------------------|--|--|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 23                                                                 | 23          | 23                | <p><b>Q. Prepare a Cash flow Statement ..... 31-3-2013 and 31-3-2012.</b></p> <p><b>Ans.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cash flow statement of Thermal Power Ltd.</b><br/><b>For the year ended 31<sup>st</sup> March 2014 as per AS-3 (Revised)</b></p> <table><tr><th>Particulars</th><th>Details (₹)</th><th>Amount (₹)</th></tr><tr><td colspan="3"><b><u>Cash Flows from Operating Activities:</u></b></td></tr><tr><td>Net Profit before tax &amp; extraordinary items</td><td>1,00,000</td><td></td></tr><tr><td><b><u>Add: Non cash and non-operating charges</u></b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Goodwill written off</td><td>72,000</td><td></td></tr><tr><td>Depreciation on machinery</td><td>66,000</td><td></td></tr><tr><td>Loss on sale of machinery</td><td>2,000</td><td></td></tr><tr><td>Operating profit before working capital changes</td><td>2,40,000</td><td></td></tr><tr><td><b><u>Less: Increase in Current Assets</u></b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Increase in trade receivables</td><td>(27,000)</td><td></td></tr><tr><td>Increase in inventories</td><td>(8,000)</td><td></td></tr><tr><td><b><u>Less: Decrease in Current Liabilities</u></b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Decrease in trade payables</td><td>(25,000)</td><td></td></tr><tr><td><b>Decrease in short term provisions (I)</b></td><td>(27,000)</td><td></td></tr><tr><td>Cash generated from Operating Activities</td><td>1,53,000</td><td><b>1,53,000</b></td></tr><tr><td colspan="3"><b><u>Cash flows from Investing Activities :</u></b></td></tr><tr><td>Purchase of machinery</td><td>(2,94,000)</td><td></td></tr><tr><td>Sale of machinery</td><td>6,000</td><td></td></tr><tr><td>Cash used in investing activities</td><td>(2,88,000)</td><td><b>(2,88,000)</b></td></tr><tr><td colspan="3"><b><u>Cash flows from Financing Activities:</u></b></td></tr><tr><td>Issue of share capital</td><td>1,00,000</td><td></td></tr><tr><td>Money raised from borrowings</td><td>70,000</td><td></td></tr><tr><td>Cash from financing activities</td><td>1,70,000</td><td><b>1,70,000</b></td></tr><tr><td>Net increase in cash &amp; cash equivalents</td><td></td><td><b>35,000</b></td></tr><tr><td><b><u>Add: Opening balance of cash &amp; cash equivalents:</u></b></td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Current Investments (II)</b></td><td>1,50,000</td><td></td></tr><tr><td>Cash &amp; cash equivalents</td><td>3,75,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>5,25,000</b></td></tr><tr><td>Closing Balance of cash &amp; cash equivalents:</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Current Investments (II)</b></td><td>2,40,000</td><td></td></tr><tr><td>Cash &amp; cash equivalents</td><td>3,20,000</td><td><b>5,60,000</b></td></tr></table> | Particulars                                                                          | Details (₹) | Amount (₹) | <b><u>Cash Flows from Operating Activities:</u></b> |  |  | Net Profit before tax & extraordinary items | 1,00,000 |  | <b><u>Add: Non cash and non-operating charges</u></b> |  |  | Goodwill written off | 72,000 |  | Depreciation on machinery | 66,000 |  | Loss on sale of machinery | 2,000 |  | Operating profit before working capital changes | 2,40,000 |  | <b><u>Less: Increase in Current Assets</u></b> |  |  | Increase in trade receivables | (27,000) |  | Increase in inventories | (8,000) |  | <b><u>Less: Decrease in Current Liabilities</u></b> |  |  | Decrease in trade payables | (25,000) |  | <b>Decrease in short term provisions (I)</b> | (27,000) |  | Cash generated from Operating Activities | 1,53,000 | <b>1,53,000</b> | <b><u>Cash flows from Investing Activities :</u></b> |  |  | Purchase of machinery | (2,94,000) |  | Sale of machinery | 6,000 |  | Cash used in investing activities | (2,88,000) | <b>(2,88,000)</b> | <b><u>Cash flows from Financing Activities:</u></b> |  |  | Issue of share capital | 1,00,000 |  | Money raised from borrowings | 70,000 |  | Cash from financing activities | 1,70,000 | <b>1,70,000</b> | Net increase in cash & cash equivalents |  | <b>35,000</b> | <b><u>Add: Opening balance of cash &amp; cash equivalents:</u></b> |  |  | <b>Current Investments (II)</b> | 1,50,000 |  | Cash & cash equivalents | 3,75,000 |  |  |  | <b>5,25,000</b> | Closing Balance of cash & cash equivalents: |  |  | <b>Current Investments (II)</b> | 2,40,000 |  | Cash & cash equivalents | 3,20,000 | <b>5,60,000</b> | <p><b>2</b></p> <p><b>1</b></p> <p><b>1</b></p> <p><b>1</b></p> |
| Particulars                                                        | Details (₹) | Amount (₹)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b><u>Cash Flows from Operating Activities:</u></b>                |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Net Profit before tax & extraordinary items                        | 1,00,000    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b><u>Add: Non cash and non-operating charges</u></b>              |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Goodwill written off                                               | 72,000      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Depreciation on machinery                                          | 66,000      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Loss on sale of machinery                                          | 2,000       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Operating profit before working capital changes                    | 2,40,000    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b><u>Less: Increase in Current Assets</u></b>                     |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Increase in trade receivables                                      | (27,000)    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Increase in inventories                                            | (8,000)     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b><u>Less: Decrease in Current Liabilities</u></b>                |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Decrease in trade payables                                         | (25,000)    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b>Decrease in short term provisions (I)</b>                       | (27,000)    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Cash generated from Operating Activities                           | 1,53,000    | <b>1,53,000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b><u>Cash flows from Investing Activities :</u></b>               |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Purchase of machinery                                              | (2,94,000)  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Sale of machinery                                                  | 6,000       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Cash used in investing activities                                  | (2,88,000)  | <b>(2,88,000)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b><u>Cash flows from Financing Activities:</u></b>                |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Issue of share capital                                             | 1,00,000    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Money raised from borrowings                                       | 70,000      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Cash from financing activities                                     | 1,70,000    | <b>1,70,000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Net increase in cash & cash equivalents                            |             | <b>35,000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b><u>Add: Opening balance of cash &amp; cash equivalents:</u></b> |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b>Current Investments (II)</b>                                    | 1,50,000    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Cash & cash equivalents                                            | 3,75,000    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
|                                                                    |             | <b>5,25,000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Closing Balance of cash & cash equivalents:                        |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| <b>Current Investments (II)</b>                                    | 2,40,000    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |
| Cash & cash equivalents                                            | 3,20,000    | <b>5,60,000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |            |                                                     |  |  |                                             |          |  |                                                       |  |  |                      |        |  |                           |        |  |                           |       |  |                                                 |          |  |                                                |  |  |                               |          |  |                         |         |  |                                                     |  |  |                            |          |  |                                              |          |  |                                          |          |                 |                                                      |  |  |                       |            |  |                   |       |  |                                   |            |                   |                                                     |  |  |                        |          |  |                              |        |  |                                |          |                 |                                         |  |               |                                                                    |  |  |                                 |          |  |                         |          |  |  |  |                 |                                             |  |  |                                 |          |  |                         |          |                 |                                                                 |

**Working Notes:**

**Machinery A/c.**

| Particulars               | ₹                       | Particulars                  | ₹                       |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| To Balance b/d            | 10,00,000               | By Bank A/c                  | 6,000                   |
| To Bank A/c (Bal. Figure) | 2,94,000                | By Accumulated Depreciation  | 16,000                  |
|                           |                         | By Loss on sale of machinery | 2,000                   |
|                           |                         | By Balance c/d               | 12,70,000               |
|                           | <b><u>12,94,000</u></b> |                              | <b><u>12,94,000</u></b> |

**Accumulated Depreciation A/c**

| Particulars      | ₹                      | Particulars                    | ₹                      |
|------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| To Machinery A/c | 16,000                 | By Balance b/d                 | 1,50,000               |
| To balance c/d   | 2,00,000               | By Depreciation a/c (Bal fig.) | 66,000                 |
|                  | <b><u>2,16,000</u></b> |                                | <b><u>2,16,000</u></b> |

**Notes:**

**(I) If short term provision is not treated as current liabilities by an examinee:**

**Decrease in short term provisions will not be shown.**

- If short term provision is treated as provision for doubtful debts.
  - Operating profit before working capital changes will be ₹ 2,13,000.
  - There is no change in the cash flow from the three activities and full credit is to be given for this treatment.
- If short term provision is treated as provision for tax:
  - Net profit before tax and extraordinary items will be ₹ 1,50,000.
  - Operating profit before working capital changes will be ₹ 2,90,000.
  - Cash generated from operations before tax will be ₹ 2,30,000
  - Tax paid off ₹ 77,000 will be deducted for calculating cash from operating activities.
  - There is no change in the cash flow from the three activities and full credit is to be given for this treatment also.
- If short term provision is treated as proposed dividend:
  - Net profit before tax and extraordinary items will be ₹ 1,50,000.
  - Cash from operating activities will be ₹ 2,30,000
  - Cash used in investing activity will remain same i.e. ₹ (2,88,000)
  - Cash from financing activity will be ₹ 93,000

**(II) If current investment is treated as current asset by an examinee:**

**Increase in current investment ₹ 90,000 will be deducted from operating profit before working capital changes. Opening and closing balance of cash & cash equivalents will be ₹3,75,000 and ₹ 3,20,000 respectively.**

- If Short term provision is treated as current liability:
  - Operating profit before working capital changes will be ₹ 2,40,000.
  - Cash from operating activities will be ₹ 63,000.
  - Cash used in investing activity will remain same i.e. ₹ (2,88,000) and cash from financing activity will also remain same i.e. ₹ 1,70,000.
  - Net decrease in cash and cash equivalents will be ₹ (55,000).
- When short term provision is treated as proposed dividend:
  - Net profit before tax and extraordinary items will be ₹ 1,50,000.
  - Operating profit before working capital changes will be ₹ 2,90,000
  - Cash from operating activities will be ₹ 1,40,000
  - Cash used in investing activity will remain same i.e. ₹ (2,88,000)
  - Cash from financing activity will be ₹ 93,000
  - Net decrease in cash and cash equivalents will be ₹ (55,000).

½

½

=

**6 Marks**

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |    |    | <p>3. When short term provision is treated as provision for tax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Net profit before tax and extraordinary items will be ₹ 1,50,000.</li> <li>• Operating profit before working capital changes will be ₹ 2,90,000</li> <li>• Cash generated from operations ₹ 1,40,000</li> <li>• Tax paid off ₹ 77,000 will be deducted for calculating cash from operating activities.</li> <li>• Cash from operating activities will be ₹ 63,000</li> <li>• Cash used in investing activity will remain same i.e. ₹ (2,88,000)</li> <li>• Cash from financing activity will be ₹ 1,70,000</li> <li>• Net decrease in cash and cash equivalents will be ₹ (55,000).</li> </ul> <p>4. If short term provision is treated as provision for doubtful debts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Net profit before tax and extraordinary items will be ₹ 1,00,000.</li> <li>• Operating profit before working capital changes will be ₹ 2,13,000.</li> <li>• Cash from operating activities will be ₹ 63,000</li> <li>• Cash used in investing activity will remain same i.e. ₹ (2,88,000)</li> <li>• Cash from financing activity will be ₹ 1,70,000</li> <li>• Net decrease in cash and cash equivalents will be ₹ (55,000).</li> </ul> |                                     |
|    |    |    | <b>PART C</b><br><b>(Computerized Accounting)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| 19 | 18 | 18 | <b>Q. DBMS stands for.....software.</b><br><b>Ans.</b><br>(c) Data Base Management System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 Mark</b>                       |
| 18 | 19 | 19 | <b>Q. A sequential.....names.</b><br><b>Ans.</b><br>(c) Numbers and letters are assigned in consecutive order.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 Mark</b>                       |
| 22 | 21 | 20 | <b>Q. Name.....interest.</b><br><b>Ans. (Any four)</b><br>Tailored software <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suitable for large organizations which have multiuse's and geographically scattered locations.</li> <li>• Require Specialties training to use.</li> <li>• They form an important part of MIS of the organization.</li> <li>• The secrecy and authenticity checks are robust.</li> <li>• Offer high flexibility in terms of no. of users.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =<br><b>4 Marks</b>                 |
| 20 | 22 | 21 | <b>Q. Explain .....bill.</b><br><b>Ans.</b><br>A salary bill should <ul style="list-style-type: none"> <li>• Payroll related data such as employee No, Name, Allendance, Basic pay, applicable Dearness and other allowance, deductions to be made.</li> <li>• Periodic payroll computations. These include calculation of various earnings and deduction heads, which are to be derived from basic values as per the formulae.</li> <li>• Preparation of salary statement employee salary slips.</li> <li>• Generation of advice to bank which contains salary to be transformed to individual bank account of employee.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 x 4</b><br>=<br><b>4 Marks</b> |
| 21 | 20 | 22 | <b>Q. Why is it.....safety.</b><br><b>Ans.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |

|   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   |   |    | <p>To have an edge over competitors and avail first mover advantage it is necessary o maintain secrecy and confidentiality. The tools which help to maintain secrecy are: <b>(Any two)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Password security: Password is widely accepted security control to access the data. Only the authorized person can access the data. Any user who does not know the password cannot retrieve information from the system. It ensures data integrity. It uses a binary encoding format of storage and offers access to the data base.</li> <li>2. Data Audit: Audit feature of accounting software provides the user with administrator right in order to keep track of unauthorized access to the data base .It audit for the correctness of entries. Once entries are audited with adulterations, if any the software displays all entries along with the name of the auditor user and date and time of alteration.</li> <li>3. Data vault: Software provides additional security for the imputed data and this feature is referred as data vault. Data vault ensures that original information is presented and is not tempered. Data vault password cannot be broken. Some software uses data encryption method.</li> </ol> | <p><b>2 x 2</b><br/><b>=</b><br/><b>4 Marks</b></p> |
| - | - | 23 | <p><b>Q. Name and explain.....interest.</b></p> <p><b>Ans.</b></p> <p>The name of financial function is <b><u>PMT</u></b></p> <p>The PMT function calculates the periodic payment for an annuity, assuming equal payments and a constant rate of interest . The syntax of PMT function is as follow:</p> <p>= PMT (rate, nper, pv,[fv], [type]) where</p> <p>Rate                      is the interet rate per period,</p> <p>Nper                      is the number of periods,</p> <p>Pv                          is the present value or the amount the future payments are worth presently,</p> <p>Fv                          is the future value or cash balance that after the last payment is made (a future value of zero when we omit this optional argument)</p> <p>Type                      is the value 0 for payments made at the end of the period or the value 1 for payments made at the beginning of the period.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>=</b><br/><b>6 Marks</b></p>                  |